

उत्तर प्रदेश: एक झलक

(उत्तर प्रदेश प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये विशेष)

यू.पी.पी.एस.सी. की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न-पत्र एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न-पत्रों में उत्तर प्रदेश की राजनीति, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, उद्योग तथा नियोजन से संबद्ध एवं समसामयिक घटनाक्रमों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 20 के बीच होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह परीक्षोपयोगी अद्यतन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।



राजनीतिक प्रशासन

- ◆ अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय 'संयुक्त प्रांत' के नाम से इसका गठन किया गया था एवं 26 जनवरी, 1950 को इसका नाम 'संयुक्त प्रांत से बदलकर 'उत्तर प्रदेश' कर दिया गया।
- ◆ 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी फिर 1858-1921 तक इलाहाबाद रही और 1921 से आज तक लखनऊ है।
- ◆ वर्ष 1921 में यहाँ विधानपरिषद का गठन किया गया।
- ◆ 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तथा 13 जिले अलग करके एक पृथक् राज्य 'उत्तरांचल' (2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया) बनाया गया।
- ◆ राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में किया गया।
- ◆ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में उत्तर प्रदेश के 7 जिले सम्मिलित हैं। ये हैं- मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत व मुजफ्फरनगर।
- ◆ प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 14.16 करोड़ (जन. 2016 में) है।
- ◆ उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के प्रथम सभापति श्री चन्द्रभाल थे।

उत्तर प्रदेश- राज्य प्रतीक

- ◆ उत्तर प्रदेश का राजकीय चिह्न - एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर-धनुष (1938 में स्वीकृत)
- ◆ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष - अशोक
- ◆ उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प - पलाश (टेसू)
- ◆ उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा - हिन्दी (1947), द्वितीय उर्दू (1989)
- ◆ उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस - नवंबर 1956
- ◆ उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु - बारहसिंगा
- ◆ उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी - सारस या क्रौंच
- ◆ उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल - हॉकी

प्रशासनिक इकाइयाँ

- जिलों की संख्या - 75
- मंडलों की संख्या - 18 (18वाँ अलीगढ़)
- आर्थिक संभाग क्षेत्र - 4
- नगरों एवं नगर समूहों की संख्या - 915
- ग्राम पंचायत - 59073
- तहसील - 342
- नगर पंचायत - 423
- नगरपालिका परिषद - 193
- नगर निगम - 16
- कुल ग्राम - 106774
- आबाद ग्राम - 97814

- ◆ नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया।
- ◆ प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले क्रमशः चित्रकूट, महोबा तथा श्रावस्ती (प्रत्येक में 2 सीट) हैं।
- ◆ चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है।
- ◆ मो. शाफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के दो बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं।
- ◆ उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ।
- ◆ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. वेंकटेश हैं।
- ◆ 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी (समाजवादी पार्टी) हैं।
- ◆ वर्तमान में (7वें) लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा (31-1-2016 से) हैं।
- ◆ प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25-2-1968 से 25-2-1969 तक रहा था।
- ◆ सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर व केशरी नाथ त्रिपाठी (3-3 बार) बने हैं।

तिथियों पर आधारित प्रमुख तथ्य

- ◆ राज्य में भू-जल सप्ताह मनाया जाता है - 16 से 22 जुलाई
- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था - 2006 से
- ◆ राज्य में भू-जल दिवस मनाया जाता है - 10 जून को
- ◆ जल प्रबंधन व विनियामक प्राधिकरण का गठन - 2010
- ◆ राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई - 2001 में
- ◆ उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम स्थापित किया गया - 1973 में
- ◆ राज्य में रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गई - नवंबर 2013 से
- ◆ परिवहन निगम की पूछताछ सेवा 149 शुरू की गई- 12 मई, 2015 से
- ◆ एन.आर.आई. विभाग का गठन - 18 जुलाई, 2014
- ◆ पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना - 1974
- ◆ उच्च न्यायालय की स्थापना - 1866
- ◆ पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत - 1984 से
- ◆ जमींदारी उन्मूलन कानून, 1950 लागू हुआ - 1 जुलाई, 1952 से
- ◆ नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन - 1962 में
- ◆ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन - 1994 में
- ◆ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन - 7 अक्टूबर, 2002 को
- ◆ राज्य सूचना आयोग का गठन - 14 सितंबर, 2005 को
- ◆ राज्य महिला आयोग का गठन - 20 जून, 2007 को
- ◆ राज्य सुरक्षा आयोग (अध्यक्ष मुख्यमंत्री) का गठन - 12 जुलाई, 2013 को

- ◆ विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या-404 (403 निर्वाचित, 1 मनोनीत)
- ◆ विधानपरिषद में सदस्यों की संख्या-100
- ◆ लोकसभा सदस्यों की संख्या - 80
- ◆ राज्यसभा सदस्यों की संख्या - 31
- ◆ सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला ज़िला- इलाहाबाद (11)
- ◆ सबसे बड़े मंडल- कानपुर और लखनऊ
- ◆ सबसे छोटा मंडल- सहारनपुर
- ◆ प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार- बरेली।
- ◆ राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- ◆ प्रथम मुख्यमंत्री- गोविंद वल्लभ पंत
- ◆ प्रथम महिला मुख्यमंत्री- सुचेता कृपलानी
- ◆ प्रथम राज्यपाल (एकमात्र महिला राज्यपाल)- सरोजनी नायडू
- ◆ सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री - मायावती
- ◆ वर्तमान राज्यपाल - श्री राम नाईक

भौतिक संरचना

- ◆ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है (भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33%)।
- ◆ क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है (राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं)।
- ◆ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 ज़िले क्रमशः लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई व सीतापुर हैं।
- ◆ सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 ज़िले क्रमशः हापुड़, गाज़ियाबाद, भदोही व शामली हैं।
- ◆ दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को

मैदानी क्षेत्र या गंगा-यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है।

- ◆ ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति 23°52' उ० अक्षांश से 31°28' उ० अक्षांश और 77°3' पूर्वी देशान्तर से 84°39' पूर्वी देशान्तर के बीच है।
- ◆ इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 650 किमी. तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किमी. है।
- ◆ प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 (8 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र) है।
- ◆ आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे ज़िले हैं।
- ◆ सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार) है।
- ◆ प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिन्दु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है।
- ◆ छत्तीसगढ़ से सटा हुआ मात्र एक ज़िला (सोनभद्र) है।
- ◆ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को (11 ज़िले) स्पर्श करती है। ये ज़िले हैं- आगरा, इटावा, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र।
- ◆ उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले उत्तराखंड को तथा 7 बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं।
- ◆ नेपाल को प्रदेश के 7 ज़िले स्पर्श करते हैं। ये ज़िले पूर्व से पश्चिम के क्रम में हैं- महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत।
- ◆ प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया और पश्चिमी ज़िला शामली है।
- ◆ प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर और दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है।
- ◆ उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैण्ड का एक भू-भाग है।

- ◆ उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर- पडरौना तक है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़-खाबड़ है।
- ◆ खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों का निर्माण होता है।
- ◆ भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी मिलती है। इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80-90 किमी. तक और लंबाई में इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिये उतनी अच्छी नहीं है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है जिसे बुंदेलखण्ड के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ललितपुर, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं।
- ◆ यह प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित है, इसलिये इसे 'बुंदेलखण्ड नीस' भी कहते हैं।

जलवायु

- ◆ उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है।
- ◆ गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा (184.7 सेमी.) होती है।
- ◆ मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है।
- ◆ संभावित वर्षा की अवधि सर्वाधिक गोरखपुर में (56 दिन) जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है।
- ◆ प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ प्रदेश की कुल भूमि में **आर्द्र भूमि** 5.15% है।
- ◆ सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला ज़िला सोनभद्र (5.08%) है।
- ◆ प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को **पूर्वा** कहा जाता है।
- ◆ प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है।
- ◆ प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनीय वर्षा होती है।
- ◆ ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण **कर्क रेखा** के नज़दीक होना है।
- ◆ सबसे कम आर्द्र भूमि वाले ज़िले बागपत और हाथरस (0.18%) हैं।

मृदा एवं मृदा अपरदन

- ◆ प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र में कहीं-कहीं काली मिट्टी भी मिलती है जिसे **करेल** या **कपासी** मृदा भी कहते हैं।
- ◆ प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी व कानपुर ज़िलों में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है।
- ◆ झाँसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली व दक्षिण इलाहाबाद में **लाल मृदा** मिलती है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है।
- ◆ परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है जिसे किसान समझ नहीं पाते हैं और खेत की उर्वरता कम होती रहती है। इसलिये इसे **'किसान की मौत'** कहते हैं।
- ◆ **अवनलिका** क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चम्बल का क्षेत्र (इटावा) सर्वाधिक प्रभावित है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में **जलोढ़ मिट्टी** पाई जाती है।

- ◆ लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह नाम से जाना जाता है।
- ◆ बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा, परवा- (पड़वा), मार (भाड़), राकर (राकड़) व भोण्डा मृदा पाई जाती है।
- ◆ वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के **मथुरा** एवं **आगरा** जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं।
- ◆ जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र **हिमालय का तराई प्रदेश** है।

कृषि एवं पशुपालन

- ◆ स्वतंत्रता से लेकर 1994-95 तक राज्य अर्थव्यवस्था में **प्राथमिक क्षेत्र** (कृषि एवं पशुपालन) का योगदान सर्वाधिक रहा है।
- ◆ वर्ष 1995-96 से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान **द्वितीय** स्थान पर आ गया, जबकि **प्रथम** स्थान पर तृतीयक क्षेत्र हो गया।
- ◆ प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं।
- ◆ प्रदेश में लगभग **74%** सीमान्त कृषक, **16%** लघु कृषक व **10%** बड़े कृषक हैं।
- ◆ वर्तमान में औसत जोत का आकार **0.75 हेक्टेयर** है।
- ◆ सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र (3,534 हेक्टेयर), पूर्वी क्षेत्र (2,371 हेक्टेयर), बुंदेलखण्ड तथा मध्य क्षेत्र हैं।
- ◆ प्रदेश में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोते कुल जोतों का **76.87%** है।
- ◆ कपास की फसल की बुआई जून-जुलाई में की जाती है।
- ◆ आम के लिये प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र **लखनऊ** में है।
- ◆ प्रदेश के तीन कृषि निर्यात क्षेत्र लखनऊ, सहारनपुर और आगरा हैं।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ भारत के लगभग 90% **मैथा ऑयल** का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है।
- ◆ मैथा ऑयल **शिवाला** के पत्तों से निकाला जाता है।
- ◆ 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम (सीलिंग कानून) पारित हुआ।
- ◆ उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बाँटा गया है।
- ◆ गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला है। सर्वाधिक उत्पादकता **गंगा-घाघरा दोआब** की है।
- ◆ गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है।
- ◆ कपास की खेती गंगा-यमुना दोआब, रुहेलखण्ड एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्रों में होती है।
- ◆ अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला **बाराबंकी** है। इसके अतिरिक्त गाज़ीपुर में भी इसकी खेती होती है।
- ◆ प्रदेश की एकमात्र **अफीम फैक्ट्री** गाज़ीपुर में है।
- ◆ प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियाँ अलफांसो, नीलम और दशहरी हैं।
- ◆ प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है।
- ◆ प्रदेश में अमरूद की प्रजातियाँ करैला, धौलका, लखनऊ-49 (सरदार), ललितसूर्खा और इलाहाबादी सफेदा हैं।
- ◆ केले की प्रजातियाँ चीनी चम्पा, दूध-सागर, अल्फान व अधेश्वर हैं।
- ◆ **इलाहाबाद** में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है।
- ◆ आँवला उत्पादन में **प्रतापगढ़** जिला अग्रणी है।
- ◆ आलू निर्यात जोन **आगरा** में है।
- ◆ बुंदेलखण्ड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है।

- ◆ महोबा में पान की खेती होती है। महोबा में 1981 में एक 'पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र' स्थापित किया गया था।
- ◆ प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं।
- ◆ प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं।
- ◆ कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक (2011) 29.0% हैं।
- ◆ कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक (2011) 30.3% हैं।
- ◆ शस्य गहनता (2008-09) 153.79% है।

पशुपालन

- ◆ उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक पशु (13.41%) हैं।
- ◆ कुल पशुधन में गाय 10.6% तथा भैंस 19.1% हैं।
- ◆ भरारी (झाँसी) में पशुचारा बैंक स्थापित है।
- ◆ पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिये तीन पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक गोरखपुर, मुज़फ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सैफई (इटावा) तथा बादलपुर (गौतम बुद्ध नगर) में दो नए पॉली क्लीनिक बनाए जा रहे हैं।
- ◆ 1999 में 'उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग' की स्थापना की गई।

दुग्ध उत्पादन

- ◆ दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान (18%) है।
- ◆ वर्ष 1973 में 'ऑपरेशन फ्लड' राज्य के तीन जिलों- वाराणसी, मेरठ और बलिया में शुरू किया गया।
- ◆ उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996-97 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा महिला डेरी योजना चलाई जा रही है।
- ◆ गोकुल पुरस्कार योजना- इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्द्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिये उत्प्रेरित

किया जाता है। यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है।

- ◆ राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई।

विभिन्न नीतियाँ

- ◆ चकबन्दी कार्यक्रम/योजना शुरू की गई - 1954 में
- ◆ आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 1 नवंबर, 2008 से हुई
- ◆ किसान मित्र योजना 18 जून, 2001 से प्रारंभ की गई।
- ◆ किसान बही योजना 1992-93 में आरंभ की गई।
- ◆ किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई।

कृषि नीति, 2005

(29 दिसंबर, 2005)

- ◆ यह नीति राम मनोहर लोहिया की 'सप्त क्रांति' के आधार पर घोषित की गई।
- ◆ इस नीति का लक्ष्य कृषि विकास दर को 4% करना था।
- ◆ इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसानों से समझौते के आधार पर खेती कराने का प्रावधान किया गया।

नई कृषि नीति, 2013

- ◆ इस नीति में कृषि के विकास हेतु अनेक उपायों पर बल देते हुए कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

- ◆ यह योजना वर्ष 1999-2000 में रबी के मौसम से प्रारंभ की गई।
- ◆ संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई।
- ◆ कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर, 2003 को आरंभ की गई।

सेनेट्री मार्ट योजना

- ◆ उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-02 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोज़गार हुए लोगों को रोज़गार प्रदान करना था।

किसान सेवा रथ

- ◆ वर्ष 2010-11 से शुरू की गई।
- ◆ इसे जनपद मुख्यालय से दूर निवास करने वाले कृषकों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिये आरंभ किया गया।

कृषि निर्यात ज़ोन

- ◆ आम और आलू निर्यात के लिये तीन ज़ोन बनाए गए हैं- (1) आगरा (आलू), (2) लखनऊ (आम) और (3) सहारनपुर (आम)।
- ◆ कृषि पार्क- हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर।

- ◆ खाद्य पार्क- नोएडा।

अन्य तथ्य

- ◆ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र, धान-मक्का-गेहूँ है।
- ◆ उत्तर प्रदेश का गेहूँ और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।
- ◆ मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में गेहूँ का विक्रय अधिशेष अधिकतम है।
- ◆ उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
- ◆ गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद, आँवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ उत्तर प्रदेश का बाजरा, चीनी, सब्जी और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है।
- ◆ राज्य में गजेटियर लिखने की शुरुआत 1957 में हुई।
- ◆ वर्ष 1954 से प्रदेश में चकबन्दी योजना लागू है।
- ◆ राज्य में सीलिंग कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा 18 एकड़ है।
- ◆ शीला धर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है।

नदी तंत्र

- ◆ प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है।
- ◆ प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है।
- ◆ राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है।
- ◆ गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है।
- ◆ गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास (बायीं ओर से) मिलती है।
- ◆ प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ (बिजनौर) में सर्वप्रथम प्रवेश करती है।
- ◆ मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है।
- ◆ मौदहा एवं मुसा कहन्द बांध क्रमशः बिरमा नदी एवं कर्मनाशा नदी पर बनाए गए हैं।
- ◆ प्रदेश में सबसे अधिक (लंबाई में) नहरें, रायबरेली (2843 किमी.) में हैं।
- ◆ प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर, जल-विद्युत उत्पादन का केंद्र है।

गंगा

- ◆ शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार (मैदान में पहली बार प्रवेश) और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है।
- ◆ हल्दिया से इलाहाबाद तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग I के रूप में है।
- ◆ यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है।

यमुना

- ◆ प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है।
- ◆ बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है।
- ◆ इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है (बांदा में भोजहा नामक स्थान पर)।
- ◆ यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा से मिल जाती है।

शारदा/काली

- ◆ प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है।

गोमती

- ◆ इसका उद्गम क्षेत्र पीलीभीत का फुलहर झील है।
- ◆ यह गाज़ीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है।

वंबल

- ◆ उद्गम- जानापाव पहाड़ी (इन्दौर)
- ◆ काली सिन्ध, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं।
- ◆ यह इटावा से लगभग 40 किमी. दूर यमुना से मिलती है।

घाघरा

- यह तिब्बत के पठार पर स्थित मापचाचुंगों हिमनद से निकलती है।
- यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- अयोध्या में यह नदी 'सरयू' कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है तथा छपरा के पास गंगा में मिल जाती है।

◆ राप्ती

- नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती हैं।
- इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है।
- यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है।

◆ बेतवा

- उद्गम- भोपाल के दक्षिण-पश्चिम से
- बेतवा, ललितपुर, झाँसी व जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है।

◆ केन

- उद्गम- कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से।
- बांदा में भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है।

◆ टोंस

- इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुण्ड से होता है।
- यह सिरसा (इलाहाबाद) के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
- बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है।

नदी जोड़ो परियोजना

- ◆ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त, 2005 को केन एवं बेतवा नदी को जोड़ने संबंधी हस्ताक्षर हुए।
- ◆ इसके तहत मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जहाँ से नहर द्वारा पानी को बेतवा नदी में लाया जाएगा, जो झाँसी के निकट बेतवा से मिलेगी।

- ◆ नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर-
 - गंगा- गढ़मुक्तेश्वर, कछलाघाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिदुर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, शृंगबेरपुर, इलाहाबाद, सिरसा, वाराणसी, गाज़ीपुर, शेरपुर (बलिया)
 - यमुना- बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद
 - गोमती- लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर
 - सरयू- अयोध्या, गोला, बड़हलगंज
 - राप्ती- गोरखपुर
 - बेतवा- हमीरपुर
 - मंदाकिनी या पयस्विनी- चित्रकूट
 - रामगंगा- मुरादाबाद
 - सई- प्रतापगढ़
 - सोन- सोनभद्र
 - हिंडन- गाज़ियाबाद

सिंचाई

- ◆ उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूप (71.2%), नहर (18.2%) तथा तालाब, झील व कुएँ (10.1%) प्रमुख हैं।
- ◆ सिंचाई के लिये सर्वप्रथम वर्ष 1830 में 'पूर्वी यमुना नहर' का निर्माण हुआ। वर्ष 1840-54 में 'ऊपरी गंगा नहर' का निर्माण हुआ।
- ◆ प्रदेश के पूर्वी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है।
- ◆ प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है।
- ◆ वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ।
- ◆ निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई।

प्रदेश की प्रमुख नहरें

- ◆ पूर्वी यमुना नहर (1830): यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर फैजाबाद-सहारनपुर नामक स्थान से (यमुना नदी से) निकाली गई है।

- ◆ ऊपरी गंगा नहर (1840-54): इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है।
- ◆ निचली गंगा नहर (1878): यह नहर नरौरा- बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 8,800 किमी. है।
- ◆ शारदा नहर (1920-28): यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है (कुल लंबाई- 12,368 किमी.)। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है।
- ◆ रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर: यह नहर झाँसी ज़िले में बेतवा नदी पर माताटीला नामक स्थान पर बनाई गई है।
- ◆ रिहन्द घाटी परियोजना- सोनभद्र ज़िले में पिपरी नामक स्थान पर है।
- ◆ केन नहर- उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर मध्य प्रदेश (पन्ना) से निकाली गई है।
- ◆ बेतवा नहर- यह बेतवा नदी से झाँसी के पारीछा नामक स्थान से निकाली गई है।
- ◆ राजघाट बांध एवं नहर परियोजना- यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है।
- ◆ हथनी कुण्ड बैराज- यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में इस बैराज का निर्माण हुआ।
 - 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बँटवारे को लेकर समझौता हुआ।
 - 12 मई, 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर, 1994 में एक नए हथनी कुण्ड बैराज की नींव रखी गई जो 1999 में

पूर्ण हुआ। इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं।

- ◆ बाण सागर बांध: इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखण्ड को मिलने वाले लाभ का अनुपात 1:2:1 है।
- ◆ यह मध्य प्रदेश में शहडोल ज़िले में सोन नदी पर निर्मित है।
- ◆ गोकुल बैराज परियोजना: आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया।
- ◆ लवकुश बैराज- कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये निर्माण किया गया।
- ◆ आगरा बैराज- आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण किया गया है।
- ◆ गंगा जल परियोजना: पेयजल के लिये दिल्ली-नोएडा बाईपास के समीप प्रताप विहार में निर्माण हुआ है (नोएडा और गाज़ियाबाद को लाभ)।

अन्य तथ्य

- ◆ उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊँचा बांध है।
- ◆ अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला ज़िला हमीरपुर है।
- ◆ प्रदेश में नहरों की सबसे अधिक लंबाई रायबरेली ज़िले में है।
- ◆ प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फुले (अमरोहा) ज़िले में है।

झीलें

- ◆ फुल्हर झील - पीलीभीत (गोमती नदी का उद्गम फुल्हर झील से होता है)
- ◆ बखीरा झील - संत कबीर नगर
- ◆ करैला झील - लखनऊ
- ◆ गोविन्द वल्लभ पंत सागर - सोनभद्र

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ औंधी ताल - वाराणसी
- ◆ लौंधी ताल - सुल्तानपुर
- ◆ देवरिया ताल - कन्नौज
- ◆ रामगढ़ ताल - गोरखपुर
- ◆ बड़ा ताल (गोखुर)- शाहजहाँपुर
- ◆ बेती, नइया झील- प्रतापगढ़
- ◆ जरगो जलाशय- मिर्जापुर
- ◆ कुन्दा समुन्दर- उन्नाव
- ◆ शुक्रताल- मुजफ्फरनगर
- ◆ अलवारा झील- कौशाम्बी
- ◆ भोजपुर ताल- सुल्तानपुर
- ◆ राजा का बांध- सुल्तानपुर
- ◆ दरवन झील- फैजाबाद
- ◆ बलहापरा झील- कानपुर
- ◆ बरुआ सागर- झाँसी
- ◆ मदर सागर- महोबा
- ◆ दहर झील- हरदोई
- ◆ मानसी गंगा- गोवर्धन
- ◆ नौह झील- मथुरा

ऊर्जा

- ◆ वर्ष 2003 में 'नई ऊर्जा नीति' लागू की गई।
- ◆ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट/व्यक्ति करने के उद्देश्य से 16274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- ◆ सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100-100 किलोवाट क्षमता की दो परियोजनाएँ उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर (अलीगढ़) एवं घोसी (मऊ) में स्थापित की गई हैं।

प्रमुख केन्द्र

- ◆ हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र (1942) अलीगढ़ में है। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ है।

- ◆ ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। यह रूस की सहायता से निर्मित है।
- ◆ अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। यह जापान के सहयोग से निर्मित है।
- ◆ पारीछा ताप विद्युत परियोजना झाँसी के निकट है।

◆ निजी क्षेत्र की इकाइयाँ:

- रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। पहले यह आदित्य बिड़ला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है।
 - दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिये गैस, कृष्णा-गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल का नाम **धीरुभाई अम्बानी नगर** रखा गया है (गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर)।
 - विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जलविद्युत परियोजना, अनपरा 'सी' विद्युत परियोजना, बाराताप विद्युत गृह व करछना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएँ हैं।
- संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ:** टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की इकाइयाँ हैं।
- नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी।

◆ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र

1. आँवला - बरेली
2. औरैया - औरैया
3. रिहन्द - सोनभद्र
4. टांडा - अंबेडकर नगर
5. ऊँचाहार - रायबरेली
6. सिंगरौली - सोनभद्र
7. दादरी - गौतम बुद्ध नगर

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ औरैया, आँवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र हैं।

अन्य तथ्य

- ◆ ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं।
- ◆ पवन ऊर्जा की देख-रेख के लिये गोरखपुर, चित्रकूट एवं महोबा में केंद्र बनाए गए हैं।
- ◆ भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में 'कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र' बनाया गया है।
- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत वर्ष 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, (नेडा) उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया।
- ◆ सौर ऊर्जा नीति, 2013 के अनुसार 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य है।
- ◆ **सोलर सिटी कार्यक्रम**- केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद व इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है।
- ◆ झाँसी का '**रामपुरा गाँव**' देश का पहला गाँव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। 8.7 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है।
- ◆ प्रदेश में "**मेगावाट क्षमता**" का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडौली गाँव में स्थापित किया गया है, इसकी क्षमता 2 मेगावाट है।
- ◆ महोबा जिले के '**करहरकला**' में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया।
- ◆ **शीतला जल विद्युत परियोजना** का निर्माण झाँसी में किया गया है।

- ◆ बारा (संगम) ताप विद्युतगृह- इलाहाबाद की बारा तहसील में जे. पी. समूह द्वारा स्थापित की जा रही ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई (660 मेगावाट) चालू कर दी गई है।

खनिज संपदा

- ◆ खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है।
- ◆ वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई।
- ◆ वर्ष 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों- इलाहाबाद, बांदा, झाँसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है।
- बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है (मिर्जापुर जिला अग्रणी है)।
- कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वाँ स्थान है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है।
- बॉक्साइट-बांदा और चन्दौली।
- डोलोमाइट-मिर्जापुर (कजराहर क्षेत्र), बांदा।
- काँच, बालू/सिलिका सैण्ड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है (इलाहाबाद सर्वाधिक प्रमुख जिला है)।
- रॉक फॉस्फेट → बांदा, ललितपुर
- फायरक्ले पायराइट्स → मिर्जापुर
- चाइना क्ले → सोनभद्र
- हीरा → बांदा, मिर्जापुर
- सोना शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर एवं सोनभद्र (हरदी क्षेत्र) में मिलता है।
- तांबा → ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र।
- जिप्सम → झाँसी, हमीरपुर
- यूरेनियम → ललितपुर

- एस्बेस्टस → मिर्जापुर, झाँसी
- संगमरमर → मिर्जापुर, सोनभद्र
- ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट → चुनार

वन संपदा (आई.एस. एफ.आर. 2015 वन रिपोर्ट के अनुसार)

- ◆ प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.88% भाग पर वनाच्छादन है। (भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.17%)
- ◆ उपग्रह आँकड़ों के आधार पर (2013-2014) वन क्षेत्र 6.00% है।
- ◆ ISFR-2013 के संशोधित आँकड़ों की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र में 112 वर्ग किमी. (0.11%) की वृद्धि हुई है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के प्रथम वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई।
- ◆ प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई।
- ◆ सर्वाधिक वन (क्षेत्रफल) वाले जिले हैं- सोनभद्र > लखीमपुर खीरी > मिर्जापुर
- ◆ न्यूनतम वन (क्षेत्रफल) वाले जिले हैं संत रविदास नगर < संत कबीर नगर < मऊ
- ◆ सर्वाधिक वन (प्रतिशत) वाले जिले हैं- सोनभद्र > चंदौली > मिर्जापुर
- ◆ न्यूनतम वन (प्रतिशत) वाले जिले हैं- संत रविदास नगर < मैनपुरी < संत कबीर नगर
- ◆ लखीमपुर खीरी जिले में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है।

अन्य तथ्य

- ◆ वर्ष 1968 के 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में 'बेस्टोबाय' द्वारा 'सामाजिक वानिकी' शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया।

- ◆ उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च, 1998 से प्रारंभ की गई (विश्व बैंक की सहायता से)।
- ◆ वृक्षबन्धु पुरस्कार योजना 2007-08 से प्रारंभ की गई। यह पुरस्कार वृक्षारोपण तथा वन्यजीव संरक्षण के लिये दिया जाता है।
- ◆ वन महोत्सव 1952 से प्रारंभ है। इसका नारा है- "वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है।"
- ◆ 2007-2008 से 'ऑपरेशन ग्रीन' का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।

वन्यजीव संरक्षण

- ◆ उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं-
 - 1. उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन
 - 2. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
 - 3. उष्णकटिबंधीय कंटली झाड़ियाँ
- वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग**
- बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाइवुड - बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर
- कागज का प्रमुख केंद्र - सहारनपुर बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने - मिर्जापुर, झाँसी
- लकड़ी के खिलौने - सोनभद्र, वाराणसी खेल का सामान - मेरठ

- ◆ राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सम्मिलित हैं।
- ◆ वर्ष 1935 में देहरादून में 'मोतीचूर वन्य जीव विहार' (राजा जी राष्ट्रीय उद्यान) की स्थापना की गई।
- ◆ वर्ष 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान 'हैली राष्ट्रीय उद्यान' (जिम कार्बेट) की स्थापना गढ़वाल (नैनीताल) में की गई।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ वर्ष 1956 में देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में ही 'वन्यजीव परिरक्षण संगठन' की स्थापना की गई।
- ◆ राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व के कुल सारसों का 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं।
- ◆ प्रदेश में गिद्ध संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।
- ◆ गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया है। ये इलाहाबाद से मिर्जापुर तक अधिक संख्या में मिलती हैं।
- ◆ एटा के पटना पक्षी विहार को अभयारण्य घोषित किया गया है।
- ◆ काले हिरण का प्रदेश में संरक्षण किया जा रहा है, अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र व इलाहाबाद के मेजा-कोरांव क्षेत्र में ये अधिक मिलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक काले हिरण गभाना क्षेत्र (अलीगढ़) में मिलते हैं।
- ◆ वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 टाइगर रिज़र्व, 2 प्राणी उद्यान, 11 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं।
- ◆ कानपुर व लखनऊ में प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है। एक और प्राणी उद्यान, अशफाकउल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है।
- ◆ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर एवं पीलीभीत जिले में है। इसे 1977 में स्थापित किया गया।
- ◆ टाइगर रिज़र्व- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में लाया गया। बाद में किशनपुर एवं कतरनियाघाट वन्य जीव विहार को टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत लाया गया। बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।
- ◆ पीलीभीत- शाहजहाँपुर के वन क्षेत्र को मिलाकर पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के रूप में जून 2014 में घोषणा हुई। यह प्रदेश का दूसरा व देश का 45वाँ टाइगर रिज़र्व है।

◆ वन्य जीव विहार

1. चन्द्रप्रभा- चन्दौली (सबसे पुराना) (1957)
 2. किशनपुर, दुधवा राष्ट्रीय पार्क- लखीमपुर खीरी
 3. कतरनिया घाट- बहराइच
 4. रानीपुर- चित्रकूट
 5. राष्ट्रीय चम्बल- इटावा
 6. कैमूर- सोनभद्र
 7. महावीर स्वामी- ललितपुर (सबसे छोटा)
 8. सोहागीवरवा- महाराजगंज
 9. सुहेलवा- श्रावस्ती
 10. कछुआ- वाराणसी
- ◆ प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है (2,073 वर्ग किमी.)। इसका विस्तार मेरठ, मुज़फ्फरनगर एवं गाज़ियाबाद जिले में है।

- ◆ बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में है।

पक्षी विहार

- ◆ नवाबगंज- उन्नाव (वर्ष 1984) सबसे पुराना
- ◆ बखीरा- बस्ती/संत कबीर नगर
- ◆ समान- मैनपुरी
- ◆ पार्वती अरंगा-गोंडा (जय प्रकाश नगर)
- ◆ विजय सागर- महोबा, हमीरपुर
- ◆ पटना- एटा (सबसे छोटा)
- ◆ सुरहाताल (लोकनायक)- बलिया
- ◆ लाख बहोसी- कन्नौज (सबसे बड़ा)
- ◆ भीमराव अंबेडकर- प्रतापगढ़ (कुण्डा)
- ◆ सांडी- हरदोई
- ◆ समसपुर- रायबरेली
- ◆ सूर सरोवर- आगरा
- ◆ ओखला- गाज़ियाबाद व गौतम बुद्ध नगर

पर्यावरण संरक्षण

- ◆ राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1976 में किया गया है।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु ताज ट्रेपोज़ियम परियोजना (1999) आरंभ की गई है।
- ◆ गंगा कार्य-योजना फरवरी 1985 में प्रारंभ हुई तथा प्रथम चरण में केवल 5 नगरों को सम्मिलित किया गया। 1993 में गंगा कार्य-योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। इस चरण में यमुना व गोमती को सम्मिलित कर तीन घटक बना दिये गए हैं।
- ◆ गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया।

परिवहन तंत्र

- ◆ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- ◆ वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ।
- ◆ वर्ष 2001 में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।
- ◆ प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग -NH-2 है (756 किमी.) इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं।
- ◆ देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से महाराष्ट्र के पश्चात् यूपी० द्वितीय स्थान पर है।
- ◆ वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 125 किमी. है।
- ◆ वर्तमान में राज्य से गुज़रने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 60 है।
- ◆ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) वर्ष 1998 में शुरू हुई। इसमें उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारा की 6 लेन सड़कें झाँसी जिले में एक-दूसरे को काटती हैं।
- ◆ विधानसभा/ विधानपरिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के तहत ग्रामीण या शहरी भाग में 5 किमी. तक सड़कों का निर्माण सदस्य की अनुमति से किया जाता है।

- ◆ **लखनऊ प्लान (1985):** यह प्रदेश में सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय योजना है।
- ◆ **यमुना एक्सप्रेस-वे:** यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी. लंबी द्रुतगामी 6 लेन सड़क है।
- ◆ **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे:** यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन एक्सप्रेस-वे के विकास हेतु दिसम्बर 2007 में हुआ।
- ◆ राज्य का प्रथम एक्सप्रेस-वे नोएडा से ग्रेटर नोएडा के मध्य निर्मित हुआ।
- ◆ लखनऊ व आगरा के मध्य 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे 302 किलोमीटर लंबा है। यह देश का सबसे लंबा नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेस-वे है। निर्माण कार्य पाँच अलग-अलग डेवलपर्स द्वारा लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, फिरोज़ाबाद व आगरा में एक साथ किया जा रहा है। यह एक्सप्रेस-वे आगरा, फिरोज़ाबाद, सैफई, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ को जोड़ेगा।
- ◆ उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई, 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य प्रारंभ की गई। 1 जून, 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह यूपी० राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया जिसका मुख्यालय लखनऊ में है।
- ◆ उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ सड़क सुरक्षा नीति (22 सितंबर, 2014) लागू की गई है।
- ◆ उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति, 2014 के तहत न्यूजीलैंड के सहयोग से हाइवे-पुलिस का गठन किया जा रहा है।
- ◆ **यमुना एक्सप्रेस-वे** (पूर्व नाम “ताज एक्सप्रेस-वे”) उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा से गुजरता है।
- ◆ **“बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस”,** बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। यह प्रदेश के कौशाम्बी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर व

लखनऊ के अलावा बिहार के गया, राजगीर, वैशाली और पटना जिलों से गुजरती है।

रेल परिवहन

- ◆ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 8,763 किमी. रेलमार्ग है जो रेल संजाल की दृष्टि से भारत में **प्रथम** स्थान पर है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में **प्रथम रेलगाड़ी** मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई।
- ◆ देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 17 हो गई है। इनमें 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है।
- ◆ इनमें 2 रेलवे जोन के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हैं-
 - पूर्वोत्तर रेल - गोरखपुर
 - उत्तर-मध्य रेल - इलाहाबाद
- ◆ उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल **9 मंडल** हैं। इनमें सबसे छोटा रेल मंडल **मुगलसराय** है।
- ◆ भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म **गोरखपुर** में है।
- ◆ एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड **मुगलसराय** में है।
- ◆ डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स- मंडुआडीह (वाराणसी) में है जिसकी आधारशिला वर्ष 1956 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने रखी थी।
- ◆ देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज (रायबरेली) में की गई है।
- ◆ रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद और गोरखपुर में है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है।
- ◆ रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है।
- ◆ पूर्वी औद्योगिक गलियारा व पश्चिमी औद्योगिक गलियारा का जंक्शन **“दादरी”** में होगा।

- ◆ प्रदेश में गाज़ियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में मेट्रो परियोजनाएँ संचालित हैं।
- ◆ लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 27 सितंबर, 2014 को प्रारंभ हुआ। इसके फेज़-I के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक कुल 8 स्टेशन होंगे। इस सेक्शन का डिज़ाइन फ्राँस की सिस्टा कंपनी ने किया है जबकि निर्माण एल एंड टी (L&T) द्वारा किया जा रहा है। इसके सलाहकार ई. श्रीधरन हैं।
- ◆ उल्लेखनीय है कि फेज़-I का उद्घाटन भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 5 सितंबर, 2017 को किया।
- ◆ लखनऊ के अलावा मेरठ, आगरा, कानपुर व वाराणसी में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। दिसम्बर 2014 में इन चार नगरों में मेट्रो चलाने हेतु फिज़िबल स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति यूपी. मंत्रिमंडल ने दी है।

वायु परिवहन

- ◆ भारत के कुल 92 हवाई अड्डों में से 11 उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ प्रमुख हवाई अड्डे इस प्रकार हैं:
 1. खेरिया हवाई अड्डा - आगरा
 2. चकरी हवाई अड्डा - कानपुर
 3. फुरसतगंज हवाई अड्डा - रायबरेली
 4. हिंडन हवाई अड्डा - गाज़ियाबाद
 5. बमरौली हवाई अड्डा - इलाहाबाद
 6. लाल बहादुर शास्त्री (बाबतपुर) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - वाराणसी
 7. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमौसी) - लखनऊ
 8. डॉ० अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - मेरठ
 9. सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - सहारनपुर
- ◆ नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली (इलाहाबाद) में स्थित है।
- ◆ आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है।
- ◆ इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी रायबरेली के फुरसतगंज में है।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

जल परिवहन

- ◆ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा एवं भारत सरकार के जल भू-तल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के अनुसार घाघरा नदी में अयोध्या से बलिया के मांझी घाट तक के जल परिवहन की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
- ◆ गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक जल परिवहन (N.W.-1) मौजूद है। जिसकी कुल लंबाई 1620 किमी. है।

अन्य तथ्य

- ◆ उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर NH-2 द्वारा नहीं जुड़ा है। NH-2 [दिल्ली-कोलकाता] से गुजरने वाले जिले मथुरा, आगरा, टुण्डला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और वाराणसी हैं।

सांस्कृतिक पहलू

चित्रकला

- ◆ मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली थी जिसकी नींव हुमायूँ द्वारा रखी गई। जहाँगीर का काल **चित्रकला का स्वर्ण काल** कहा जाता है।
- ◆ आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ। असित कुमार हलदार इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। लखनऊ में चित्रकला की वाश तथा टेम्पा नामक दो नई शैलियाँ विकसित हुईं।
- ◆ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। इन्होंने ग्राफिक

विद्या की शुरुआत की तथा नैसर्गिक सौन्दर्य की आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया।

- ◆ रामलीला “**भवानी चरण ग्यू**” का सुप्रसिद्ध चित्र है।
- ◆ अब्दुस समद के चित्र ‘**गुलशन चित्रावली**’ में संकलित हैं।
- ◆ जहाँगीर ने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग बनवाया था।
- ◆ मेरठ निवासी चमन सिंह ‘चमन’ ने चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है।
- ◆ जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्ति-चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है।
- ◆ अमृता शेरगिल गोरखपुर की एक ख्यातिप्राप्त चित्रकार हैं।

चित्रकार

1. रणबीर सिंह बिष्ट
2. शिवनंदन नौटियाल
3. विश्वनाथ मेहता
4. नन्द किशोर शर्मा
5. रणबीर सक्सेना

कृतियाँ

- गपशप,
पहाड़ी घसियारे
सत्यम-शिवम्
-सुन्दरम्
प्यासा ऊँट,
सोहाग
बिन्दी, सृष्टि
कालीन, ट्रे
बुद्ध का गृहत्याग,
प्रतीक्षा, झूला

संगीत

- ◆ बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश वीणा बजाने में दक्ष थे।
- ◆ अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गाँव में हुआ था, इन्होंने खयाल गायन शैली को विकसित किया और सितार व तबले का आविष्कार किया।
- ◆ स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ किंतु इन्होंने अपना जीवन वृंदावन

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- में बिताया। इनके शिष्य तानसेन थे। इनको ध्रुपद-धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। **नोट:** मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन होता है।
- ◆ जौनपुर के हुसैन शाह शर्की ने **बड़ा खयाल** का प्रवर्तन किया।
 - ◆ बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ।
 - ◆ तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश (ग्वालियर) में हुआ।
 - ◆ राज्य सरकार ने 1957 में ‘**संस्कृति विभाग**’ की स्थापना की।
 - ◆ भातखण्डे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है।
 - ◆ पं विष्णु नारायण भातखण्डे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई, 1926 को ‘**मेरिस कॉलेज ऑफ हिन्दुस्तानी म्यूज़िक**’ की नींव रखी गई। 1960 में इसका नाम भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। अब इसका नाम भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ कर दिया गया है।
 - ◆ राज्य ललित कला अकादमी (लखनऊ), 8 फरवरी, 1962 को स्थापित की गई।
 - ◆ भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ में अगस्त 1975 में स्थापित की गई।
 - ◆ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवम्बर, 1963 को की गई।
 - ◆ राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1988-89 में की गई।
 - ◆ भारत कला भवन संग्रहालय (1920) का निर्माण वाराणसी में रायकृष्ण दास के प्रयासों से हुआ था।
 - ◆ **प्रमुख संगीत घराने:**
 1. **आगरा घराना**- अलख दास, मलूकदास
 2. **लखनऊ घराना**- बिन्दा दीन, कोदऊ सिंह, खुशीद अली खॉ (लखनऊ खयाल गायकी के पितामह), शंभू महाराज, बिरजू महाराज।

3. **किराना घराना** (मुज़फ्फरनगर में स्थान)- बंदे अली खाँ, गंगू बाई हंगल, हीरा बाई बडोदकर, भीमसेन जोशी।
4. **बनारस घराना**- छन्नूलाल मिश्र, राजन-साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज (समता प्रसाद मिश्र), मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी।
5. **भिण्डी बाज़ार घराना** (मुम्बई)- मुरादाबाद के छज्जू खाँ आदि के मुम्बई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खाँ से शिक्षा प्राप्त की।
- ◆ इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है किन्तु संगीत की विभूतियाँ का संबंध इलाहाबाद से ही है। केसरबाई, जानकी बाई (छप्पन छूरी)।
- ◆ हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बाँसुरी वादन के लिये प्रसिद्ध हैं।
- प्रमुख कलाकार संबंधित क्षेत्र**
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. किशन महाराज | तबला वादन |
| 2. गुदई महाराज | तबला वादन (समता प्रसाद) |
| 3. अनोखे लाल मिश्र | तबला वादन |
| 4. कोदऊ सिंह | पखावज |
| 5. पं. सखाराम | पखावज |
| 6. शंभू महाराज | कथक |
| 7. बिरजू महाराज | कथक |
| 8. अच्छन महाराज | कथक |
| 9. बिन्दादीन | कथक |
| 10. श्रीमती एन. राजम | वायलिन (बनारस घराना) |
| 11. पं. रविशंकर | सितार (बनारस घराना) |
| 12. बिस्मिल्ला खाँ | शहनाई वादन (बनारस घराना) |
- ◆ **शास्त्रीय नृत्य-**
- उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है।
 - नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ।

- इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है।
- बिन्दादीन ने कथक में टुमरी का प्रचलन किया। इन्होंने 'सनदापिया' उपनाम से टुमरी की बन्दिशें तैयार कीं।

लोकनृत्य

1. चरकुला - ब्रज क्षेत्र
2. कठघोड़वा - पूर्वांचल
3. खयाल - बुंदेलखण्ड
4. रासनृत्य - ब्रज क्षेत्र
5. झूला नृत्य - ब्रज क्षेत्र
6. धोबिया - पूर्वांचल- धोबी समुदाय द्वारा।
7. नटवरी - पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा।
8. सौरा नृत्य - बुंदेलखण्ड के कृषकों द्वारा।
9. धुरिया - बुंदेलखण्ड के प्रजापति समुदाय (कुम्हार) द्वारा।
10. राई - बुंदेलखण्ड की महिलाओं द्वारा।
11. दीप - बुंदेलखण्ड के अहीरों द्वारा।
12. देवी - बुंदेलखण्ड
13. कार्तिक - बुंदेलखण्ड
14. कर्मा एवं शीला - मिर्जापुर व सोनभद्र (खरवारजन जाति द्वारा)
15. धींवर - पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा
16. कलाबाजी - अवध क्षेत्र (नृत्य)
17. मयूर नृत्य - ब्रज क्षेत्र
18. ढरकहरी नृत्य - सोनभद्र की जनजातियों द्वारा
19. छोलिया नृत्य - राजपूतों द्वारा (विवाहोत्सव पर)।
20. जोगिनी नृत्य - अवध क्षेत्रों में, विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर।
21. चौरसिया नृत्य - जौनपुर के कहारों द्वारा
22. पाई डण्डा - बुंदेलखण्ड के अहीरों द्वारा

प्रमुख लोक गीत

1. कजरी - मिर्जापुर, वाराणसी
2. आल्हा - बुंदेलखण्ड, महोबा
3. इसुरी फाग - बुंदेलखण्ड
4. होरी, रसिया - ब्रज क्षेत्र, बरसाना
5. चैती, चैता - पूर्वांचल
6. होली गीत, झूला गीत - वृंदावन
7. बिरहा - भोजपुर (बिहार)/पूर्वी उत्तर प्रदेश (अवध क्षेत्र)
8. सोहर - पूर्वांचल (विशेषतः अवध)
9. लावणी व बहतरबील - रुहेलखण्ड
10. ढोला व रागिनी - पश्चिमी क्षेत्र
11. मल्हौर - कौरबी क्षेत्र

नाटक

- ◆ प्रथम नाटक 'नहुष' को माना जाता है जिसका लेखक 'बाबू गोपाल चन्द्र गिरधर' को माना जाता है।
- ◆ आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत 'जानकी मंगल' था।
- ◆ रामलीला, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं।
- ◆ प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियाँ हैं। कानपुर शैली मनोरंजन प्रधान जबकि हाथरस शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता है।

प्रमुख मेले

- ◆ राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा (86), कानपुर (80) में तथा सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं।
- | | |
|----------------------|----------|
| 1. बटेश्वर मेला | आगरा |
| (पशु मेला) | |
| 2. नौचंदी मेला | मेरठ |
| 3. ददरी मेला (पशु) | बलिया |
| 4. सोरों मेला | कासगंज |
| 5. गोला गोरखनाथ मेला | खीरी |
| 6. देवी पाटन | गाँडा |
| 7. देवा शरीफ | बाराबंकी |

उत्तर प्रदेश: एक झलक

8. नक कटैया मेला	वाराणसी
9. सैय्यद सलार मसूद मेला	बहराइच
10. गोविंद साहब मेला	अंबेडकर नगर
11. ध्रुपद मेला	वृंदावन, वाराणसी
12. कैलाश मेला	आगरा
13. शाकम्भरी देवी मेला	सहारनपुर
14. संत हाजी वारिस अली शाह मेला	देवा शरीफ बाराबंकी
15. हरिदास जयंती मेला	वृंदावन
16. माघ मेला	इलाहाबाद
17. कालिंजर मेला	बांदा
18. झूला मेला	वृंदावन
19. कंस मेला	मथुरा
20. शृंगारामपुर मेला	फर्रुखाबाद
21. शिल्प मेला	इलाहाबाद
22. देव छठ मेला	मथुरा

प्रमुख वार्षिक उत्सव

1. सुलहकुल महोत्सव	आगरा
2. ताज महोत्सव (फरवरी में)	आगरा
3. बिटूर गंगा महोत्सव	कानपुर
4. कबीर महोत्सव	मगहर
5. झाँसी महोत्सव (फरवरी, आयुर्वेद महोत्सव)	झाँसी
6. कजली महोत्सव	मिर्जापुर
7. सैफई महोत्सव	इटवा (जनवरी)
8. कम्पिल महोत्सव	फर्रुखाबाद
9. गंगा महोत्सव	वाराणसी व इलाहाबाद
10. यमुना महोत्सव	मथुरा
11. कल्क महोत्सव	संभल
12. वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल	इलाहाबाद
13. लठमार होलिकोत्सव	मथुरा

फिल्म

- ◆ 10 दिसंबर, 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई।

- ◆ 1999 में पहली फिल्म नीति घोषित की गई जिसमें फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया और इसे 2001 में संशोधित किया गया। इस नीति के तहत 'उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु' का गठन किया गया जो प्रदेश में निर्मित होने वाली फिल्म के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की संस्तुति करती है।

संग्रहालय

- ◆ प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं।
- ◆ प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय- राजकीय संग्रहालय, लखनऊ (1863) है।
- ◆ राजकीय बौद्ध संग्रहालय - पिपरहवा, गोरखपुर व कुशीनगर।
- ◆ राजकीय जैन संग्रहालय - मथुरा।
- ◆ डॉ. भीमराव अंबेडकर संग्रहालय- एवं पुस्तकालय - रामपुर।
- ◆ प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तयुगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय- राजकीय संग्रहालय, मथुरा।
- ◆ राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय- मेरठ।

अन्य तथ्य

- ◆ अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई।
- ◆ उत्तर-मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है।
- ◆ भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास के लिये स्थापित हिन्दुस्तान अकादमी इलाहाबाद में स्थित है।
- ◆ बेगम समरु ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण 'सरधना' में कराया।
- ◆ जौनपुर को भारत का शीराज-ए-हिन्द कहा जाता है।
- ◆ मलीहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है।
- ◆ वीणा प्राचीनतम वाद्य यंत्र है।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है।
- ◆ वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई।
- ◆ वर्ष 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई।
- ◆ वर्ष 1974 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई।
- ◆ वर्ष 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया।
- ◆ वर्ष 2000-01 में प्रदेश में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई।
- ◆ जापान की सहायता से मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है जो बौद्ध परिपथों के निर्माण हेतु है। बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशांबी तथा श्रावस्ती सम्मिलित हैं।

प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल

- ◆ विश्व धरोहर में शामिल राज्य के तीन स्मारक - फतेहपुर सीकरी, आगरा किला व ताजमहल हैं।
- ◆ धमेख स्तूप (गुप्तकालीन)- सारनाथ (वाराणसी)
- ◆ अयोध्या- यह जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है।
- ◆ कनकभवन अयोध्या में स्थित है।
- ◆ आगरा
 - मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
 - 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी।
- ◆ कपिलवस्तु
 - इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है।
 - इसकी पहचान शाक्य गणराज्य से की गई।
- ◆ लुम्बिनी
 - गौतम बुद्ध का जन्म स्थान।
 - वर्तमान में नेपाल में है जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किमी. दूर है।

◆ कौशाम्बी

- यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है।
- यहाँ छोटे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर भी है।
- घोषिताराम विहार यहीं स्थित है।
- कुशीनगर में रामाभर स्तूप है।
- श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है।

◆ काल्पी - जालौन ज़िले में बीरबल का जन्म स्थान।

◆ हुलास खेड़ा - लखनऊ में स्थित है। यहाँ 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण हैं।

◆ बिठूर (कानपुर)- यहीं पर रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था।

◆ नैमिषारण्य (सीतापुर)- महर्षि दधीचि ने यहाँ अपनी अस्थियाँ दान कर दी थीं। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है।

◆ गोलगोकर्ण नाथ - लखीमपुर खीरी

◆ देवा शरीफ (बाराबंकी)- सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार।

◆ चित्रकूट - कामदगिरि पर्वत

उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर

मंदिर	स्थान
दशावतार मंदिर	ललितपुर
बाबा सोमनाथ मंदिर	देवरिया
शृंगी ऋषि मंदिर	फर्रुखाबाद
वाराह भगवान मंदिर	एटा
जे.के. मंदिर	कानपुर
देवीपाटन मंदिर	तुलसीपुर
विश्वनाथ मंदिर	वाराणसी
चन्द्रोदय मंदिर	वृंदावन (विश्व का सबसे ऊँचा मंदिर)
वासुकी व वेणीमाधव मंदिर	इलाहाबाद
पाताल मंदिर	इलाहाबाद
भारत माता मंदिर	वाराणसी
रत्नागिरी मंदिर	फैजाबाद

कनकभवन मंदिर	अयोध्या
कामतानाथ मंदिर	चित्रकूट
राजा सुहेलदेव मंदिर	बहराइच
भर्तृहरि मंदिर	मिर्जापुर
कुन्तेश्वर महादेव मंदिर	बाराबंकी
गोरखनाथ मंदिर	गोरखपुर
राम-जानकी मंदिर	कुशीनगर
औघड़नाथ मंदिर	मेरठ
शाकम्भरी देवी मंदिर	सहारनपुर

प्रमुख व्यक्तित्व

1. निज़ामुद्दीन औलिया - (जन्म-बदायूँ)
2. ज़ियाउद्दीन बरनी - बुलंदशहर में बरन नामक स्थान के निवासी थे।
3. अमीर खुसरो (पटियाली)- कासगंज
4. टोडरमल- सीतापुर
5. अबुल फज़ल- आगरा
6. बीरबल- जालौन (काल्पी)
7. शेख फैज़ी- आगरा
8. रानी लक्ष्मीबाई (जन्म- वाराणसी में)
 - इनका पालन-पोषण पेशवा बाजीराव- II के संरक्षण में की देख-रेख में बिठूर में हुआ।
 - इनके बचपन का नाम मनु था।
 - बाजीराव इन्हें छबीली कहते थे।
 - 18 जून, 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई।
9. नाना साहब
 - प्रारंभिक नाम- गोविन्द
 - परिवार में- धोधोपंत (घोड़ो पंत) के नाम से चर्चित।
 - पालन-पोषण- बाजीराव-II, बिठूर में।
 - बाजीराव इन्हें प्यार से नाना कहते थे।
 - अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिये ₹ 1 लाख का इनाम रखा था।
 - अंततः नेपाल भाग गए।
9. तात्या टोपे
 - मूल नाम- रामचन्द्र पाण्डुरंग।
 - नाना साहब की फौज के सेनापति।
 - पालन-पोषण बिठूर में; पेशवा बाजीराव-II के संरक्षण में।

10. रामप्रसाद बिस्मिल

- जन्म- शाहजहाँपुर
- फाँसी- गोरखपुर

11. चन्द्रशेखर आज़ाद

- जन्म- भवरा (अलीराजपुर) म.प्र.
- मृत्यु- इलाहाबाद (अल्फ्रेड पार्क)

12. सर सैयद अहमद खाँ

- जन्म- दिल्ली (वर्ष 1817)
- 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरियन्टल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया।

13. पं० मदन मोहन मालवीय

- जन्म- इलाहाबाद (वर्ष 1861)
- बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- ये भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण निरक्षरता को मानते थे।

14. मंगल पाण्डे

- बैरकपुर (पं० बंगाल) के 34वीं इन्फैंट्री के सिपाही।
- इन्होंने मेजर ह्यूस्टन को गोली मारी।

15. चित्तू पाण्डे

- भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया।

16. मोतीलाल नेहरू

- जन्म- इलाहाबाद (वर्ष 1861)
- 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की।
- स्वराज पार्टी के गठन में मुख्य भूमिका।
- 1930 में मृत्यु।

17. जवाहरलाल नेहरू

- जन्म- इलाहाबाद
- 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया।
- 1929, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा।
- 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री।

शिक्षा एवं पत्र-पत्रिकाएँ

उत्तर प्रदेश: एक झलक

12. रैदास
 - जन्म- वाराणसी
13. सूरदास
 - जन्म- मथुरा
 - गुरु- वल्लभाचार्य
14. लाल बहादुर शास्त्री
 - जन्म- मुगलसराय
15. तुलसीदास
 - जन्म- चित्रकूट के पास राजापुर गाँव में।
 - बचपन का नाम- रामबोला
16. मिर्जा ग़ालिब- आगरा
17. नजीर अकबराबादी- आगरा
18. चक्रबस्त- लखनऊ
19. फिरोज़ गोरखपुरी (रघुपति सहाय)- गोरखपुर
20. कैफ़ी आज़मी- आजमगढ़
21. जोश- मलीहाबाद
22. जिगर- मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपद

महाजनपद	राजधानी	क्षेत्र
काशी	वाराणसी	वाराणसी
वत्स	कौशांबी	इलाहाबाद
कोसल	श्रावस्ती	फैजाबाद
मल्ल	कुशीनगर	देवरिया, बस्ती गोरखपुर
पांचाल	अहिच्छत्र (प.पांचाल) एवं काम्पिल्य (पूर्वी पांचाल)	बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद
चेदि	शक्तिमती	बुंदेलखंड
शूरसेन	मथुरा	मथुरा
कुरु	इन्द्रप्रस्थ	मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर

- ◆ गाज़ियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है।

- ◆ भारत का सिराज सिराज-ए-हिंद जौनपुर को कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज़शाह तुगलक ने की थी।
- ◆ अकबर के नवरत्नों में टोडरमल, बीरबल का संबंध उत्तर प्रदेश से था।
- ◆ प्रथम कॉन्ग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 10 उत्तर प्रदेश के थे।
- ◆ 1889 में कॉन्ग्रेस के 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया जिनकी संख्या 10 थी।
- ◆ स्वतंत्रता से पूर्व कॉन्ग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कुल 9 बार हुआ।

क्रांतिकारियों के फौसी के स्थान

- ◆ अशाफाक उल्ला ख़ाँ- फैजाबाद
- ◆ रोशन लाल- नैनी (इलाहाबाद)
- ◆ राजेन्द्र लाहिड़ी- गोण्डा
- ◆ राम प्रसाद बिस्मिल- गोरखपुर
- ◆ द नेशनल हेराल्ड समाचार-पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने सितम्बर 1938 को लखनऊ में किया। इस समाचार पत्र का हिन्दी संस्करण- “नवजीवन” व उर्दू संस्करण “कौमी आवाज़” था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन व नवजीवन नामक समाचार-पत्रों का संपादन किया।

प्रमुख खिलाड़ी

- ◆ हॉकी- मेजर ध्यानचन्द- इलाहाबाद
- ◆ क्रिकेट- 1. मनोज प्रभाकर
- 2. लाला अमरनाथ
- 3. रमन लांबा
- 4. सुरेश रैना
- 5. आर.पी. सिंह (रायबरेली)
- 6. पीयूष चावला (अलीगढ़)
- 7. मो. कैफ (इलाहाबाद)
- मुक़्केबाज़ी- अखिल कुमार
- जिमनास्टिक- आशीष कुमार
- डॉ. यू.के. मिश्रा- चर्चित मैनेजर (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर)

- ◆ 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई।
- ◆ 1872 में इलाहाबाद में ‘म्योर सेंट्रल कॉलेज’ की स्थापना की गई।
- ◆ उच्चतर माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु ‘संस्कृत शिक्षा परिषद्’ लखनऊ का गठन किया गया। डिग्री स्तर से ऊपर की संस्कृत शिक्षा पर नियंत्रण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी करता है।
- ◆ शिक्षा मित्र योजना 2000-01 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, मानकानुसार अध्यापक- छात्र अनुपात बनाए रखना तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराना है। ग्राम शिक्षा समिति इस योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों का चयन करती है।
- ◆ प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन वर्ष 1972 में कक्षा 9 से 12 तक के संचालन के लिये किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद इसके अधीन गठित परीक्षा लेने वाली संस्था है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में हुआ था। यह योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है।
- ◆ सर्व शिक्षा अभियान सन् 2000 से चल रहा है। इसका उद्देश्य 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा देना है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिये स्कूल चलो अभियान वर्ष 2001 में शुरू हुआ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

- ◆ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद; स्थापना वर्ष: 1887 (2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त)। यह प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।
- ◆ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; स्थापना वर्ष: 1916
- ◆ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; स्थापना वर्ष: 1875
- ◆ डॉ० भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ; स्थापना वर्ष: 1996
- ◆ राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय- रायबरेली
- ◆ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय - झाँसी स्थापना वर्ष: 2014

कृषि विश्वविद्यालय

- ◆ नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय)- फैजाबाद
- ◆ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय)- मेरठ
- ◆ चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय)- कानपुर
- ◆ बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय)- बांदा
- ◆ सैम हिंगिन बाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (डीमड विश्वविद्यालय)- इलाहाबाद
- ◆ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) - झाँसी
- 1950 में आगरा में दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज

लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज - मेरठ
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज - झाँसी
गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज - कानपुर
सरोजनी नायडू (एस.एन.) मेडिकल कॉलेज - आगरा
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज - गोरखपुर
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज - अलीगढ़
छात्रपति साहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज - लखनऊ

अन्य

- ◆ उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (1976) - लखनऊ
- ◆ राज्य हिन्दी संस्थान - वाराणसी
- ◆ भारती भवन पुस्तकालय - इलाहाबाद
- ◆ हिन्दुस्तान अकादमी (1927) - इलाहाबाद
- ◆ कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिन्दी संस्थान - आगरा
- ◆ उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है।
- ◆ मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है।
- ◆ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया।
- ◆ भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय (जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय) प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित।
- ◆ उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना -1972 में की गई।
- ◆ उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र लखनऊ में स्थित है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है।

- ◆ उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी-1997
- ◆ राज्य में 6 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज (बाँदा, रामपुर, बदायूँ, जौनपुर, चन्दौसी व सहारनपुर) में निर्माणाधीन हैं।
- ◆ ग्रेटर नोएडा में 2013 में स्थापित राज्य के प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय व शैक्षणिक संस्थान को 2014-15 में प्रदेश का दूसरा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया गया है।

पत्र-पत्रिकाएँ

मासिक पत्र/पत्रिका	ज़िला
धरती माँ, शक्ति माँ	गाज़ियाबाद
आरोग्य, कल्याण (गीता प्रेस)	गोरखपुर
बहुरंगी, मार्तंड	मेरठ
आपका स्वास्थ्य, जीवन शिक्षा, राजा बेटा, रानी बिटिया, शिक्षक	वाराणसी
आध्यात्म, बाल सखा, कहानी, माया, मनोरमा, सत्यकथा	इलाहाबाद
छात्र शक्ति, नोक-झोंक, प्रतियोगिता, दर्पण, युवक, साहित्य, लोक साहित्य संदेश	आगरा
राष्ट्रमत (साप्ताहिक), नागरिक (साप्ताहिक)	कानपुर

- ◆ हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र- उदंत मार्तण्ड (कोलकाता से) प्रकाशित हुआ।
 - संपादक- जुगल किशोर (कानपुर के निवासी)।
 - 1826 में आरंभ।
- ◆ उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिन्दी पत्र- बनारस अखबार (साप्ताहिक); 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द द्वारा प्रारंभ।
- ◆ 1846 में उर्दू का पहला अखबार 'सरदल अखबार' प्रकाशित - आगरा से।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ 'सरस्वती' पत्रिका (इलाहाबाद से प्रकाशित) का संपादन (1900-1902) में श्यामसुंदर दास (1903-1921) महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था।
- ◆ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा 'प्रताप' नामक पत्र कानपुर से प्रकाशित हुआ।
- ◆ 1930 में मुंशी प्रेमचन्द ने 'हंस' का संपादन किया।

प्रौद्योगिकी विकास

नक्षत्रशालाएँ-

1. इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला- लखनऊ (2003 में स्थापित)
 2. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला- गोरखपुर
 3. आर्यभट्ट नक्षत्रशाला- रामपुर। डॉ. भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला का नाम परिवर्तित कर आर्यभट्ट कर दिया गया है।
 4. जवाहर नक्षत्रशाला- इलाहाबाद (स्वतंत्र)
- ◆ बायोटेक पार्क- लखनऊ
 - ◆ 2002 में 89वें विज्ञान कांग्रेस में लखनऊ को भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था।
 - ◆ राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1994 में की गई। शासन द्वारा 1998 में इसका नाम परिवर्तित कर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग किया गया।
 - ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का प्रारंभ जनवरी 2009 में राज्य के छः जिलों में किया गया, जनवरी 2010 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया।
 - उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद जनपद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है।
 - ◆ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क- नोएडा, कानपुर (दोनों सबसे पहले बने), लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा में बाद में स्थापित हुए।
 - ◆ शासकीय डाटा के त्वरित आदान-प्रदान के लिये स्वान परियोजना प्रारंभ की गई है।

उ.प्र. की अर्थव्यवस्था

- ◆ उत्तर प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों में बाँटा गया है-
 1. पूर्वी - 28 जिले
 2. पश्चिमी - 30 जिले
 3. केंद्रीय - 10 जिले
 4. बुंदेलखण्ड - 7 जिले
- ◆ औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है एवं सबसे कम विकसित बुंदेलखण्ड क्षेत्र है।
- ◆ कृषि जोतों में सीमान्त आकार वाली जोतों (1 हेक्टेयर से कम) का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है।
- ◆ प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है, किन्तु 2004-2005 से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर लगातार बढ़ रहा है।

औद्योगिक स्थिति

- ◆ पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है।
- ◆ औद्योगिक विकास दर छठी योजना में सर्वाधिक रही थी (11.81% उत्तर प्रदेश में)
- ◆ हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन (हिंडालको) रेणुकूट (सोनभद्र) में स्थापित है।
- ◆ हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है।
- ◆ रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग-हथकरघा उद्योग है।
- ◆ नौवीं योजना में औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही।
- ◆ 12वीं योजना में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 11.2% है।
- ◆ 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ, गाज़ीपुर का कटवर्क और गाज़ियाबाद का टेरी-टवेल पहले से कलात्मक कपड़ों के लिये प्रसिद्ध रहा है।
- ◆ कानपुर, उत्तरी भारत का मानचेस्टर कहलाता है।
- ◆ मथुरा में मलमल छपाई का काम होता है।
- ◆ **स्वर्ण कार्ड (Golden Card)**- यूपी० सरकार ने दिसम्बर 2012 में अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं औद्योगिक संगठनों की सुविधा के लिये राज्य सचिवालय व इससे संबद्ध विभागों में प्राथमिकता के आधार पर और बिना बाधा के प्रवेश हेतु "स्वर्ण कार्ड" जारी किया।

रेशम उद्योग

- विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में पाई जाती हैं- शहतूत, टसर, इरी और मूगा।
- मूगा किस्म केवल भारत में पाई जाती है।
- उत्तर प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूती रेशम का है और फिर टसर रेशम का।
- इरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र- औरैया
- टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सोनभद्र
- उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सुभागपुर (गोण्डा)
- ◆ प्रादेशिक को-ऑपरेटिव सेरीकलचर फेडरेशन का गठन 1992 में रेशम उत्पादकता में वृद्धि के लिये किया गया।

चीनी उद्योग

- ◆ राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है।
- ◆ उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई।
- ◆ उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन 1976-77 में किया गया।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर (देवरिया) में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की।
- उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान (लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान) की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई।

महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र

- ◆ भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री- ललितपुर
- ◆ जी.ई.सी.- नैनी
- ◆ रेल पहिया कारखाना- रायबरेली (निर्माणाधीन)
- ◆ डीप फ्रीज मीट प्लांट- टूण्डला (फिरोजाबाद)
- ◆ आयुध उपस्कर कारखाना- हज़रतपुर (कानपुर)
- ◆ अफीम कारखाना- गाज़ीपुर
- ◆ जूट कारखाना- कानपुर व सहजनवा (गोरखपुर)
- ◆ सुरमा उद्योग- बरेली
- ◆ ब्लैक पाटरी उद्योग- आजमगढ़
- ◆ पेंटिंग्स उद्योग- मथुरा
- ◆ कत्था उद्योग- बरेली
- ◆ चिकन, जरी व जरदोजी उद्योग- बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद
- ◆ मूढ़ा उद्योग- गढ़मुक्तेश्वर
- ◆ बाँसुरी उद्योग- पीलीभीत
- ◆ हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट- मुरादाबाद
- ◆ प्लाईवुड उद्योग- सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद (बिजनौर)
- ◆ बेंट व छड़ियों संबंधी उद्योग- बरेली
- ◆ एग्रोपार्क- लखनऊ व वाराणसी
- ◆ निकिडा सिटी- कानपुर व उन्नाव
- ◆ ट्रांस गंगा परियोजना- उन्नाव
- ◆ ग्रोथ सेंटर- मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बिजौली, दिवियापुर
- ◆ कृत्रिम रबर कारखाना - मोदीनगर
- ◆ पॉलीफाइबर - बाराबंकी
- ◆ विस्फोटक, कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज़, एपरैल पार्क - कानपुर

- ◆ एंटीबायोटिक प्लांट - ऋषिकेश
- ◆ नॉलेज पार्क - ग्रेटर नोएडा
- ◆ तेल शोधक संयंत्र - मथुरा
- ◆ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री- नैनी, रायबरेली
- ◆ ट्रोनिका सिटी - कानपुर, गाज़ियाबाद
- ◆ चर्म प्रौद्योगिकी पार्क- बन्धारा (उन्नाव)
- ◆ निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क- नोएडा व आगरा
- ◆ कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र - हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर
- ◆ परमाणु शक्ति केंद्र - नरौरा
- ◆ रेल कोच फैक्ट्री - रायबरेली
- ◆ डीज़ल लोकोमोटिव फैक्ट्री - वाराणसी
- ◆ टेराकोटा - चिनहट, गोरखपुर
- ◆ चीनी मिट्टी के बर्तन- चिनहट
- ◆ ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री- झाँसी
- ◆ पीतल के बर्तन- मुरादाबाद
- ◆ काष्ठ नक्कासी- सहारनपुर
- ◆ काष्ठ पादुका- पीलीभीत
- ◆ इत्र एवं तेल- कन्नौज
- ◆ चाकू-कैंची- रामपुर
- ◆ प्लाईवुड उद्योग- सीतापुर
- ◆ सीमेंट उद्योग- चुनार (मिर्जापुर), डल्ला (सोनभद्र), चुर्क (सोनभद्र)
- ◆ खेल का सामाना- आगरा और मेरठ
- ◆ कांच की चूड़ियाँ- फिरोजाबाद
- ◆ एल्यूमीनियम उद्योग- रेणुकूट
- ◆ उर्वरक उद्योग- आँवला (बरेली), फूलपुर (इलाहाबाद)
- ◆ लकड़ी के खिलौने- लखनऊ, वाराणसी
- ◆ दियासलाई उद्योग- बरेली, सहारनपुर
- ◆ छपाई फार्मा- फर्रुखाबाद

अन्य तथ्य

- ◆ केंद्र सरकार द्वारा क्लस्टर विकास योजना मार्च 2006 में शुरू की गई। केंद्र द्वारा 2013 तक कुल 26 क्लस्टरों की स्वीकृति मिली। कुछ प्रमुख क्लस्टर निम्न हैं-

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- कालीन क्लस्टर- मिर्जापुर
- ग्लास बीड्स, हथकरघा क्लस्टर- वाराणसी
- पॉटरी क्लस्टर- खुर्जा, बुलंदशहर
- ◆ उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रदेश में 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं-

1. नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)-1976
2. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गोडा)-1989
3. सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-1989
4. वृहद् नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेटर नोएडा)-1991
5. लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)-2005
6. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा)- 2001

राजस्व की स्थिति

- ◆ 1950 में उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ।
- ◆ 1953 में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम पारित हुआ।
- ◆ 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबन्दी योजना लागू हुई।
- ◆ 1960 में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम पारित किया गया।
- ◆ 1992 में किसान बही योजना/जोत बही योजना आरंभ की गई।
- ◆ 2004 में कृषकों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई।

व्यापार कर

- ◆ उत्तर प्रदेश में व्यापार कर राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम बना।
- ◆ 1994 से इसे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम कहा गया।
- ◆ 1999 में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम पारित।
- ◆ पहली जनवरी 2008 से VAT प्रणाली लागू की गई जिसमें केवल 4 दरें हैं।
- ◆ अगस्त 2009 में राज्य कर परिषद का गठन किया गया।
- ◆ उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 20 जोन हैं जिनमें सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रहण लखनऊ से होता है और तत्पश्चात् कानपुर, गाज़ियाबाद, नोएडा से। सबसे कम संग्रहण झाँसी जोन से किया जाता है।
- ◆ व्यापार कर के पश्चात् उत्पाद शुल्क व स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियाँ सर्वाधिक हैं।

मनोरंजन कर

- ◆ प्रदेश में मनोरंजन कर की आय का लगभग 49% भाग सिनेमा हॉल से प्राप्त होता है।
- ◆ प्रदेश में केबल टीवी सेवा 1991-92 से चल रही है।

उत्तर प्रदेश में नियोजन

- ◆ उत्तर प्रदेश में 5 नवम्बर, 1971 को नियोजन विभाग और योजना आयोग का गठन किया गया।
- ◆ 1982-83 से नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली लागू की गई।
- ◆ पंचायती प्रणाली लागू होने के बाद 1990 से ज़िला योजना समिति का गठन किया गया है।
- ◆ प्रत्येक ज़िले में समिति के सदस्यों की संख्या कम-से-कम 20 और

अधिक-से-अधिक 40 होगी। जनपद के सभी सांसद और विधायक समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

- ◆ समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- ◆ ज़िला योजना समिति का अध्यक्ष कोई एक मंत्री होगा।

10वीं पंचवर्षीय

योजना (2002-07)

- ◆ राज्य योजना आयोग द्वारा 8% की विकास दर निर्धारित की गई है।
- ◆ इस योजना में कृषि विकास का लक्ष्य 5.17% रखा गया था।

11वीं पंचवर्षीय

योजना (2007-12)

- ◆ प्रतिवर्ष 10% आर्थिक विकास का लक्ष्य।
- ◆ कृषि क्षेत्र के लिये विकास दर का लक्ष्य 5.7%।
- ◆ औद्योगिक विकास का लक्ष्य-10.5%।
- ◆ गरीबी को घटाकर 15% के अन्दर तक लाना।
- ◆ 11वीं योजना में सर्वाधिक व्यय की मदें:
 1. यातायात- 15.09%
 2. विद्युत ऊर्जा- 14.56%

◆ 11वीं योजना के परिणाम-

आर्थिक विकास दर	- 7%
कृषि	- 2.6%
औद्योगिक विकास दर	- 7.7%
सेवा क्षेत्र विकास दर	- 9.1%

12वीं पंचवर्षीय

योजना (2012-17)

- ◆ इस योजना का मुख्य उद्देश्य "समावेशन के साथ टिकाऊ, धारणीय व पोषणीय विकास" करना है।
- ◆ आर्थिक विकास का लक्ष्य 10% तय किया गया है।

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ 12वीं योजना में नई कृषि नीति को लागू कर कृषि क्षेत्र में 5% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ◆ 2017 तक कुल प्रजनन दर को 3.8 से कम करके 2.8 तक लाना।
- ◆ 2017 तक शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) को 899 वर्तमान स्तर से सुधारकर 924 तक लाना।
- ◆ 2017 तक पूर्ण साक्षरता (85%) प्राप्त करना।
- ◆ उत्तर प्रदेश 12वीं योजना का लक्ष्य-
 - (i) आर्थिक विकास- 10%
 - (ii) कृषि विकास- 5%
 - (iii) औद्योगिक विकास- 11.2%
 - (iv) सेवा क्षेत्र में विकास- 11.9%
 - (v) साक्षरता दर- 85%

अन्य

- ◆ 1990-91 में पूर्वांचल निधि योजना चलाई गई।
- ◆ प्रदेश के पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है।
- ◆ चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पूर्वी क्षेत्र का है।
- ◆ जनसंख्या घनत्व तथा स्त्री-पुरुष अनुपात सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में है।
- ◆ सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति आय- पश्चिमी क्षेत्र में।
- ◆ सर्वाधिक विद्युतीकृत गाँव- पश्चिमी क्षेत्र में।
- ◆ सर्वाधिक साक्षरता दर- बुंदेलखण्ड (60%) में।
- ◆ कृषि जोतों का औसत आकार (हे. में)
 - सर्वाधिक- बुंदेलखण्ड क्षेत्र (1.72 हे.)
 - सबसे कम- पूर्वी क्षेत्र (0.65 हे.)
- ◆ सर्वाधिक लिंगानुपात क्रमशः-
 1. पूर्वी क्षेत्र
 2. केंद्रीय क्षेत्र
 3. पश्चिमी क्षेत्र
 4. बुंदेलखण्ड

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2017

- ◆ भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने 4 जनवरी, 2017 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2017 की घोषणा की थी।
- ◆ उत्तर प्रदेश के साथ चार अन्य राज्यों- गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखण्ड के चुनाव भी सम्पन्न कराए गए।
- ◆ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न किये गए।

चुनाव कार्यक्रम (उ.प्र. विधानसभा)				
मतदान चरण	चुनाव तिथि	सीटें	मतगणना तिथि	चुनाव प्रक्रिया पूर्ण तिथि
प्रथम चरण	11-02-2017	73	11-03-2017 (शनिवार)	15-03-2017 (बुधवार)
द्वितीय चरण	15-02-2017	67		
तृतीय चरण	19-02-2017	69		
चतुर्थ चरण	23-02-2017	53		
पंचम चरण	27-02-2017	52		
षष्ठम चरण	04-03-2017	49		
सप्तम चरण	08-03-2017	40		

- ◆ इन विधानसभा चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार की अधिकतम खर्च सीमा 28 लाख रुपए तक की गई।
- ◆ नोटबंदी के उपरान्त चुनावों के क्रियान्वयन हेतु चुनाव आयोग ने 20,000 से ऊपर का खर्च कैशलेस करने के निर्देश भी जारी किये थे।
- ◆ उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 (403 विधानसभा निर्वाचन +1 नामित एंग्लो-इंडियन सदस्य) है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं।

- ◆ इस चुनाव में भाजपा को 39.7 प्रतिशत मत के साथ 312 सीटें हासिल हुईं।
 - ◆ भाजपा के सहयोगी दलों (अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी) को कुल 13 सीटों पर जीत हासिल हुई। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 47 सीटें ही प्राप्त हुई थीं।
- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2017 में अब तक की सर्वाधिक 42 महिलाओं ने चुनाव में विजय प्राप्त की है।

- ◆ पार्टी स्तर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक 36 महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं।
- ◆ विधानसभा चुनाव, 2017 में सर्वाधिक मतों के अंतर से साहिबबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की है।

उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम

कुल सीटें-403		
राजनीतिक दल	प्राप्त सीटें	मत प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी (BJP)	312	39.7
समाजवादी पार्टी (SP)	47	21.8
बहुजन समाज पार्टी (BSP)	19	22.2
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	7	6.2
राष्ट्रीय लोकदल (RLD)	1	1.8
अपना दल (सोने लाल)	9	1.0
निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (NISHAD)	1	0.6
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP)	4	0.7
निर्दलीय	3	2.6

योगी आदित्यनाथ

- ◆ योगी आदित्यनाथ (अजय सिंह बिष्ट) का जन्म 5 जून, 1972 को उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हुआ था।
- ◆ वे उत्तर प्रदेश के पदक्रमानुसार 32वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं।
- ◆ वे वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के लिये गोरखपुर से सबसे युवा सांसद (26 वर्ष) के रूप में निर्वाचित हुए थे।
- ◆ लगातार 5 बार लोक सभा के सांसद निर्वाचित (वर्ष 1998, 1999, 2004, 2009, 2014) हो चुके हैं।
- ◆ राज्यपाल राम नाईक ने 19 मार्च, 2017 को स्मृति उपवन में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ सुनील कुमार शर्मा (भाजपा) ने अमरपाल (काँग्रेस) को 1,50,685 मतों से हराया।
- ◆ राघवेंद्र प्रताप सिंह (भाजपा) ने मात्र 171 मतों से सैयदा खातून (बसपा) को डुमरियागंज विधानसभा सीट से पराजित कर प्रदेश में न्यूनतम मतों के अंतर से चुनाव जीता है।
- ◆ भाजपा के कुशाग्र सागर (25 वर्ष) ने

बदायूँ ज़िले के बिसौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर सबसे युवा विधायक होने का गौरव हासिल किया है।

- ◆ सबसे युवा महिला विधायक भाजपा की सुचि चौधरी (27 वर्ष) बनी हैं। इन्होंने बिजनौर से चुनाव जीता है।
- ◆ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 15 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में सरकार

बनाने का अवसर मिला है।

- ◆ कुल 22 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और 13 राज्य मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण की थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 25 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 13 राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल हैं।

प्रमुख कैबिनेट मंत्री

नाम	विभाग
श्री योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री)	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना निर्वाचन, संस्थागत बिल, भाषा आदि।
श्री केशव प्रसाद मोर्य (उप मुख्यमंत्री)	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम
डॉ. दिनेश शर्मा (उप मुख्यमंत्री)	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
श्री ओमप्रकाश राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
श्री श्रीकांत शर्मा	ऊर्जा
श्री चेतन चौहान	खेल, युवा कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
श्री जय प्रताप सिंह	आबकारी, मद्य निषेध
श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
श्री सुरेश खन्ना	संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
श्री स्वामी प्रसाद मोर्य	श्रम, सेवायोजन, समन्वय
श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास
श्री राजेश अग्रवाल	वित्त
श्री धर्मपाल सिंह	सिंचाई, सिंचाई (अभियांत्रिकी)
श्री रीता बहुगुणा जोशी	महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन
श्री दारा सिंह चौहान	वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान


प्रमुख राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नाम	विभाग
श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास, चीनी मिलें, औद्योगिक विकास
श्री स्वतंत्रदेव सिंह	परिवहन, प्रोटोकॉल, ऊर्जा
श्री धरम सिंह सैनी	आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास
श्री स्वाती सिंह	एन.आर.आई (NRI), परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण

स्थानीय शासन व्यवस्था

पंचायती राज प्रणाली- संयुक्त प्रांत (यूपी.) में स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 पास हुआ तथा 1947-48 में पंचायतों की स्थापना प्रारंभ हुई। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 पारित कर त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई।

- ◆ उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 प्रदेश में अप्रैल 1994 को प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के आधार पर पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई तथा तीनों स्तरों पर 6 प्रकार की समितियाँ बनाई जाती हैं।



जिला पंचायत

- ◆ यह सबसे शीर्ष स्तर है।
- ◆ जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- ◆ जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों द्वारा होता है।
- ◆ जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है।

क्षेत्र पंचायत


- ◆ यह मध्यम या द्वितीय स्तर है।
- ◆ यह ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के मध्य की कड़ी होती है।
- ◆ इसका सचिव खण्ड विकास अधिकारी होता है।
- ◆ क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत

- ◆ यह सबसे निचला स्तर है।
- ◆ ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्रामसभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है।
- ◆ ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
- ◆ प्रत्येक ग्रामसभा की वर्ष में दो आम बैठकें होती हैं।
- ◆ किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक इसके गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है।
- ◆ इसके उपरान्त सामान्यतः प्रत्येक माह एक बैठक होनी चाहिये और दो बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिये।
- ◆ किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिये 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है।
- ◆ बैठक के लिये ग्रामसभा के कम-से-कम 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है।
- ◆ इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है।
- ◆ बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव यदि पास नहीं हो पाता है तो ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के एक वर्ष बाद लाया जा सकता है।

नगर निकाय प्रणाली

उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम व संयुक्त नगर प्रांत पालिका अधिनियम, 1916 पारित होने के बाद हुई। 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 बनाया गया तथा त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई।



नगर निगम

- ◆ मेयर- प्रत्यक्ष रूप से चुनाव (5 वर्ष के लिये)
- ◆ सभासद- प्रत्यक्ष रूप से चुनाव
- ◆ उप मेयर- सभासदों द्वारा चुनाव (1 वर्ष के लिये)
- ◆ मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण तिथि से दो वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है।

नगरपालिका परिषद

- ◆ अध्यक्ष- प्रत्यक्ष चुनाव
- ◆ उपाध्यक्ष- अप्रत्यक्ष चुनाव
- ◆ निर्वाचित सदस्य- 25 से 55 तक
- ◆ मनोनीत- 3 से 5 सदस्य

नगर पंचायत

- अध्यक्ष- प्रत्यक्ष निर्वाचन
- उपाध्यक्ष- अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- निर्वाचित सदस्य- 10 से 24 तक
- मनोनीत सदस्य- 2 से 3 सदस्य
- ◆ पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से पाँच वर्ष तक होता है।

जनगणना - 2011

- ◆ प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का प्रतिशत- 19,98,12,341 (16.51%)
- ◆ राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत- 52.29% महिलाओं का प्रतिशत- 47.71%
- ◆ राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत- 77.7%
- ◆ राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत- 22.3%
- ◆ देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 18.63% (देश में प्रथम) है।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 11.79% (महाराष्ट्र के बाद दूसरा) है।
- ◆ विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका व इण्डोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। इससे पहले यह छठे स्थान पर था। इस दौरान ब्राजील इससे पीछे छूट गया।
- ◆ देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद चौथा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है।
- ◆ सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले- (1) इलाहाबाद, (2) मुरादाबाद, (3) गाज़ियाबाद, (4) आजमगढ़ और (5) लखनऊ।
- ◆ न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले- (1) महोबा, (2) चित्रकूट, (3) हमीरपुर, (4) श्रावस्ती और (5) ललितपुर।
- ◆ 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी- (1) इलाहाबाद, (2) आजमगढ़, (3) जौनपुर।
- ◆ सबसे कम ग्रामीण आबादी- (1) गौतम बुद्ध नगर, (2) महोबा, (3) हमीरपुर।
- ◆ सर्वाधिक शहरी आबादी- (1) गाज़ियाबाद, (2) लखनऊ, (3) कानपुर नगर।
- ◆ सबसे कम शहरी आबादी- (1) श्रावस्ती, (2) चित्रकूट, (3) कौशाम्बी।
- ◆ सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले (घटते क्रम में) - इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ।
- ◆ सर्वाधिक महिला आबादी वाले 5 जिले (घटते क्रम में) - इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ।
- ◆ न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले क्रमशः - गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ।
- ◆ जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य - उत्तर प्रदेश।

शिशु जनसंख्या

- ◆ 0-6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या तथा प्रतिशत - 3,07,91,331 (15.41%) (2001 में शिशु जनसंख्या 19.0% थी, इस प्रकार 2011 में शिशु जनसंख्या में 3.59% की गिरावट आई है।)
- ◆ 0-6 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बहराइच (18.77%) तथा सबसे कम कानपुर नगर (11.13%) में है।
- ◆ सर्वाधिक बाल जनसंख्या (ग्रामीण)- (1) यू.पी., (2) बिहार, (3) राजस्थान, (4) मध्य प्रदेश।
- ◆ सबसे कम बाल जनसंख्या (ग्रामीण)- (1) लक्षद्वीप, (2) चंडीगढ़, (3) दमन एवं दीव, (4) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- ◆ सर्वाधिक बाल जनसंख्या (शहरी)- (1) यू.पी. (2) महाराष्ट्र, (3) तमिलनाडु, (4) गुजरात।
- ◆ सबसे कम बाल जनसंख्या (शहरी)- (1) लक्षद्वीप, (2) अंडमान और निकोबार, (3) सिक्किम, (4) दमन एवं दीव।
- ◆ उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले चार जिले क्रमशः - बलरामपुर (950), संत कबीर नगर (942), बहराइच (935), सिद्धार्थ नगर (935)।
- ◆ जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले चार जिले क्रमशः - बागपत (841), गौ. बु. नगर (843), गाज़ियाबाद (850) व मेरठ (852) हैं।
- ◆ 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में 916 था, जो कि घटकर 2011 में 902 हो गया है अर्थात् 2001-2011 के दौरान 0-6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है।
- ◆ जनगणना- 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से राज्य का शिशु लिंगानुपात 17 कम है।

जनसंख्या घनत्व

- ◆ उत्तर प्रदेश का जनघनत्व - 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
- ◆ 2001-11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि-139
- ◆ भारत का जनघनत्व - 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
- ◆ स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981-91 के दौरान तथा सबसे कम वृद्धि 1951-61 के दौरान हुई।
- ◆ सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले (घटते क्रम में)
 1. गाज़ियाबाद
 2. वाराणसी
 3. लखनऊ
 4. संत रविदास नगर (भदोही)
 5. कानपुर नगर
- ◆ न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले (बढ़ते क्रम में)
 1. ललितपुर
 2. सोनभद्र
 3. हमीरपुर
 4. महोबा
 5. चित्रकूट

साक्षरता दर

- ◆ उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता- 67.70%; पुरुष साक्षरता - 77.30%; महिला साक्षरता - 57.20%
- ◆ 2001-11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में 11.4% की वृद्धि हुई है।
- ◆ 2011 में राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से 5.3% कम है।
- ◆ सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले-
 1. गौतम बुद्ध नगर
 2. कानपुर नगर
 3. औरैया
 4. इटावा
 5. गाज़ियाबाद
- ◆ सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले (पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है)-
 1. श्रावस्ती
 2. बहराइच
 3. बलरामपुर
 4. बदायूँ
 5. रामपुर

- ◆ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता- 1. गौतम बुद्ध नगर 2. औरैया 3. इटावा 4. गाज़ियाबाद, 5. झाँसी
- ◆ न्यूनतम पुरुष साक्षरता- क्रमशः (प्रतिशत के आधार पर)
 1. श्रावस्ती
 2. बहराइच
 3. बलरामपुर
 4. बदायूँ
 5. रामपुर
- ◆ सर्वाधिक महिला साक्षरता- 1. कानपुर नगर 2. लखनऊ 3. गौतम बुद्ध नगर 4. औरैया 5. गाज़ियाबाद
- ◆ सबसे कम महिला साक्षरता- 1. श्रावस्ती, 2. बलरामपुर 3. बहराइच 4. बदायूँ 5. रामपुर
- ◆ उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता - 65.46% और नगरीय साक्षरता - 75.14%
- ◆ जनगणना- 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का है। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम कानपुर नगर ज़िले में है।

लिंगानुपात

- ◆ उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात - 912 (भारत का लिंगानुपात - 943)
- ◆ 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है।
- ◆ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 ज़िले (घटते क्रम में)
 1. जौनपुर (1024)
 2. आजमगढ़ (1019)
 3. देवरिया (1017)
 4. प्रतापगढ़ (998)
 5. सुल्तानपुर (983)
- ◆ न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 ज़िले (बढ़ते क्रम में)
 1. गौतम बुद्ध नगर (851)
 2. हमीरपुर और बागपत (861)

3. कानपुर नगर, बांदा और मथुरा (863)
4. औरैया (864)

शिशु लिंगानुपात- (2011)

- ◆ स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991-2001 के दौरान व सबसे कम 1951-61 के दौरान रही।
- ◆ उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष आयु वर्ग)- 902 (2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था जो कि 2011 में 14 अंक घटकर 902 हो गया)।
- ◆ राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले हैं- बलरामपुर और बागपत।

उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर

- ◆ 2001-11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर - 20.22%
- ◆ दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान - 14वाँ।
- ◆ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	दशकीय वृद्धि
1951	11.78
1971	19.57
1981	25.39
1991	25.55
2001	25.85
2011	20.22

- ◆ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 ज़िले-
 1. गौतम बुद्ध नगर
 2. गाज़ियाबाद
 3. श्रावस्ती
 4. बहराइच
 5. बलरामपुर
- ◆ न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 ज़िले-
 1. कानपुर नगर
 2. हमीरपुर
 3. बागपत
 4. फतेहपुर
 5. देवरिया
- ◆ जनगणना- 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 915 नगर हैं जिनमें 1 लाख से

लेकर 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 64 है। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान 30वाँ है।

- ◆ सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले- 1. गाज़ियाबाद, 2. लखनऊ, 3. कानपुर नगर
- ◆ उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है।
- ◆ 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर (आबादी के घटते क्रम में क्रमशः)- लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी व इलाहाबाद।
- ◆ 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल (आबादी के घटते क्रम में क्रमशः)- कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ व इलाहाबाद।

अनुसूचित जातियाँ

- ◆ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.7% है।
- ◆ देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
- ◆ सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले ज़िले- 1. सीतापुर 2. इलाहाबाद 3. हरदोई।
- ◆ सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले ज़िले- 1. बागपत 2. श्रावस्ती 3. गौतम बुद्ध नगर।
- ◆ कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले ज़िले- 1. कौशाम्बी 2. सीतापुर 3. हरदोई।
- ◆ कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले ज़िले- 1. बागपत 2. बरेली 3. बलरामपुर

उत्तर प्रदेश: एक झलक

अनुसूचित जनजातियाँ

- ◆ भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है।
- ◆ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% है।
- ◆ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या- 1. सोनभद्र 2. बलिया 3. देवरिया
- ◆ सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या- 1. बागपत 2. कन्नौज 3. बदायूँ
- ◆ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत वाला ज़िला सोनभद्र तथा सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला ज़िला बागपत है।
- ◆ जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, जबकि सबसे छोटी बनरावत।
- ◆ केंद्र सरकार ने 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। इस तरह सूचीबद्ध जनजातियों की कुल संख्या 12 हो गई है (पहले केवल थारू एवं बुक्सा ही सूचीबद्ध थीं।)

कुछ प्रमुख जनजातियाँ

- ◆ **थारू:** यह जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। इसका संबंध किरात वंश से है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। ये हिन्दू धर्म को मानते हैं। इनमें बजहर नामक त्यौहार का प्रचलन है तथा ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये गोरखपुर क्षेत्र में निवासित हैं।
- ◆ थारू जनजाति में विधवा-विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार के विवाह में

भोज दिया जाता है जिसको लठभरवा भोज कहते हैं।

- ◆ सरकार थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इस हेतु अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति हेतु स्थापित किया गया है। शिक्षा के प्रसार से इनमें सांस्कृतिक चेतना आई है और इनका जीवन सुधर रहा है।
- ◆ **बुक्सा:** यह जनजाति का मुख्यतः बिजनौर व आगरा ज़िले में पाई जाती है। इस जनजाति में काशीपुर की चामुण्डा देवी सबसे बड़ी देवी हैं।
- ◆ **महीगीर:** यह जनजाति बिजनौर ज़िले के नज़ीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है।
- ◆ इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं।
- ◆ इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है।
- ◆ **खरवार:** यह जनजाति मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बाँदा जनपद के पाठा क्षेत्र के इर्द-गिर्द निवास करती है। इस जनजाति में कर्मा नामक नृत्य प्रचलित है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद ज़िलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती।

जनजाति	जनपद
परहिया, बैगा, अंगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया	सोनभद्र
पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर
चेरो	सोनभद्र एवं चन्दौली
खरवार / खैरवार	देवरिया, सोनभद्र, बलिया, गाज़ीपुर एवं वाराणसी
सहरिया	ललितपुर

स्लम जनगणना

- ◆ 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% है।
- ◆ राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले ज़िले (घटते क्रम में)-
1. मेरठ 2. आगरा
3. कानपुर नगर 4. लखनऊ
5. गाज़ियाबाद
- ◆ देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 राज्य (घटते क्रम में)-
1. महाराष्ट्र 2. आंध्र प्रदेश
3. प. बंगाल 4. उत्तर प्रदेश
5. तमिलनाडु
- ◆ उत्तर प्रदेश की स्लम आबादी में साक्षरता दर 69% है।
- ◆ सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले शीर्ष पाँच राज्यों/संघीय प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद चौथा है।

धर्म आधारित

जनगणना (उत्तर प्रदेश)

- ◆ सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को तथा सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म को मानने वालों की है।
- ◆ धार्मिक जनसंख्या (घटते क्रम में)-
1. हिंदू 2. मुस्लिम
3. सिक्ख 4. बौद्ध
5. ईसाई 6. जैन
- ◆ सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म (93.2%) की तथा सबसे कम मुस्लिम धर्म (47.8%) की है।
- ◆ सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म में (961) तथा सबसे कम सिक्ख धर्म (877) में है।

जनसंख्या नीति - 2000

- ◆ प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई, 2000 को की गई।
- ◆ परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु "जनसंख्या कोष" की स्थापना की गई।

- ◆ 2016 तक प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत लाना लक्षित किया गया।
- ◆ वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष करना लक्षित किया गया है।
- ◆ कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित रखने का निर्णय लिया गया है।
- ◆ विवाह की पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है।
- ◆ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में “जनसंख्या एवं विकास आयोग” का गठन हुआ है।
- ◆ जनसंख्या पर खर्च किये जाने वाले कुल बजट का 10% पंचायतों के माध्यम से खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख संस्थाएँ

- ◆ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट- लखनऊ
- ◆ पशु जैविक औषधि संस्थान- लखनऊ
- ◆ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर- लखनऊ
- ◆ इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट- लखनऊ
- ◆ सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट- लखनऊ
- ◆ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज- लखनऊ
- ◆ नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट- लखनऊ
- ◆ नेशनल बोटैनिकल गार्डन- लखनऊ
- ◆ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर- लखनऊ
- ◆ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी- लखनऊ
- ◆ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (राज्य का दूसरा)- लखनऊ
- ◆ इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर- लखनऊ
- ◆ सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र- लखनऊ
- ◆ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज- लखनऊ

- ◆ इन्डस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर- लखनऊ
- ◆ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)- लखनऊ
- ◆ इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला- लखनऊ
- ◆ उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद- लखनऊ
- ◆ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (2002)- लखनऊ
- ◆ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान- लखनऊ
- ◆ डॉ. राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज- लखनऊ
- ◆ उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान (2014)- लखनऊ (निर्माणाधीन)
- ◆ सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस (2001)- लखनऊ
- ◆ उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज- लखनऊ
- ◆ डॉ. राममनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी- लखनऊ
- ◆ मा. कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान- चिनहट (लखनऊ)
- ◆ उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (2000)- लखनऊ
- ◆ ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशाला- लखनऊ
- ◆ राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान- लखनऊ
- ◆ राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान- लखनऊ
- ◆ उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम- लखनऊ (2002)
- ◆ लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान (विकास) संस्थान- लखनऊ
- ◆ खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र- लखनऊ
- ◆ कंप्यूटर एडेड डिजायनिंग परियोजना- लखनऊ
- ◆ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण- लखनऊ

- ◆ राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र- चिनहट (लखनऊ)
- ◆ उत्तर प्रदेश निर्यात निगम- लखनऊ
- ◆ प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम (पिकप)- लखनऊ
- ◆ दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान- बक्शी का तालाब (लखनऊ)
- ◆ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज- लखनऊ
- ◆ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट अकादमी व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (निर्माणाधीन)- सी.जी. सिटी (लखनऊ)
- ◆ राष्ट्रीय स्तर का साइकिल वेलोड्रूम- लखनऊ (निर्माणाधीन)
- ◆ डॉ. अंबेडकर समतामूलक चौक- लखनऊ
- ◆ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र- गोमती नगर, लखनऊ
- ◆ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान- गोमती नगर (लखनऊ)
- ◆ रमाबाई अंबेडकर मैदान- लखनऊ
- ◆ जनेश्वर मिश्र पार्क- लखनऊ
- ◆ एग्रो पार्क- लखनऊ
- ◆ देश का तीसरा साइंस सिटी बन रहा है- लखनऊ में
- ◆ राज्य में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/आईटी सिटी- सी.जी. सिटी (लखनऊ)
- ◆ जैव प्रौद्योगिकी पार्क- लखनऊ
- ◆ राज्य का प्रथम हार्डटेक टाउन : सुशांत गोल्फ सिटी (लखनऊ)
- ◆ एशिया का प्रथम डीएनए बैंक- लखनऊ
- ◆ अवध शिल्पग्राम: सी.जी. सिटी (लखनऊ)
- ◆ मेडीसिटी- लखनऊ
- ◆ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी- कानपुर
- ◆ इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (दलहन अनुसंधान संस्थान): कल्याणपुर (कानपुर)

उत्तर प्रदेश: एक झलक

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट- कानपुर
- ◆ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी- कानपुर
- ◆ भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान- कानपुर
- ◆ केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की इकाई- कानपुर
- ◆ चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- कानपुर
- ◆ गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (1956)- कानपुर
- ◆ लक्ष्मीपति सिंंहानिया हृदय रोग संस्थान (1975)- कानपुर
- ◆ जे.के. कैंसर संस्थान- कानपुर
- ◆ डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड- कानपुर
- ◆ उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान- कानपुर
- ◆ राजकीय चर्म संस्थान- कानपुर
- ◆ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड- कानपुर
- ◆ वन अनुसंधान संस्थान- कानपुर
- ◆ ग्रीन पार्क स्टेडियम (क्रिकेट)- कानपुर
- ◆ उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी- कानपुर (2010 में स्थापित)
- ◆ मेगा लेदर क्लस्टर (निर्माणाधीन)-संडीला व रमईपुर (कानपुर देहात)
- ◆ एपरेल (टेक्सटाइल) एवं होज़री पार्क- कानपुर
- ◆ साइबर सिटी- कानपुर
- ◆ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क- एचवीटीआई (कानपुर)
- ◆ केंद्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान- इलाहाबाद
- ◆ मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान- इलाहाबाद
- ◆ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (III-T-प्रथम परिसर)- इलाहाबाद
- ◆ जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान- झूंसी (इलाहाबाद)
- ◆ नॉर्दन रीज़नल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी- इलाहाबाद
- ◆ नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र- बमरौली, इलाहाबाद
- ◆ हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान-झूंसी (इलाहाबाद)
- ◆ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एण्ड फिज़िक्स- इलाहाबाद
- ◆ जवाहर नक्षत्रशाला (आनन्द भवन में)- इलाहाबाद
- ◆ सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज़ (डीम्ड विश्वविद्यालय)- नैनी (इलाहाबाद)
- ◆ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (1961)- इलाहाबाद
- ◆ अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स- इलाहाबाद
- ◆ मदन मोहन मालवीय स्टेडियम- इलाहाबाद
- ◆ इको नॉलेज पार्क- खुसरोबाग (इलाहाबाद)
- ◆ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट- बरेली
- ◆ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट- इज़्जतनगर (बरेली)
- ◆ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट)- रायबरेली
- ◆ सेंट्रल एवियन (पक्षी) रिसर्च इंस्टीट्यूट- इज़्जतनगर (बरेली)
- ◆ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी- रायबरेली
- ◆ राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट- जायस (अमेठी)
- ◆ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट- रायबरेली
- ◆ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (III-T-द्वितीय परिसर)- टीकरमाफी (अमेठी)
- ◆ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी- फुर्सतगंज (रायबरेली)
- ◆ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट -जगदीशपुर, (अमेठी)
- ◆ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च- रायबरेली (निर्माणाधीन)
- ◆ डॉ. अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स- अमेठी
- ◆ मेगा फूड पार्क- जगदीशपुर व बहेड़ी (बरेली)
- ◆ भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान- चौकाघाट (वाराणसी)
- ◆ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान- संत रविदास नगर (भदोही)
- ◆ नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- कुमारगंज (फैजाबाद)
- ◆ डॉ. अंबेडकर स्टेडियम- वाराणसी
- ◆ टी.वी. डेमोन्स्ट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेंटर- आगरा
- ◆ सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट- आगरा
- ◆ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ आफथलमोलॉजी- सीतापुर
- ◆ इंडियन ग्रासलैण्ड एण्ड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट- झाँसी
- ◆ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान- मथुरा
- ◆ सेंट्रल पोर्टो रिसर्च स्टेशन- मेरठ
- ◆ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी- मेरठ
- ◆ नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज- आगरा
- ◆ नेशनल बायोफर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर- गाज़ियाबाद
- ◆ नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री- झाँसी
- ◆ इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट- हापुड़
- ◆ स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी- सहारनपुर

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- ◆ वीरबहादुर सिंह नक्षत्रशाला (रामगढ़, परिसर में)- गोरखपुर
- ◆ आर्यभट्ट नक्षत्रशाला (लेजर तकनीक)- रामपुर
- ◆ सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- मोदीपुरम (मेरठ)
- ◆ बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- बांदा
- ◆ उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, (इटावा)
- ◆ मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र- गोरखपुर
- ◆ डॉ. अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी- मुरादाबाद
- ◆ फ्रगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर- कन्नौज
- ◆ रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सुभागपुर (गोण्डा), सोनभद्र व औरैया
- ◆ क्लॉथ (कपड़ा) रिसर्च इंस्टीट्यूट- गाज़ियाबाद
- ◆ राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र- चुना (मिर्जापुर) व खुर्जा (बुलंदशहर)
- ◆ कांच उद्योग विकास केंद्र- फिरोज़ाबाद
- ◆ केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र- खुर्जा
- ◆ पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र- महोबा
- ◆ आलू अनुसंधान केंद्र- बाबूगंज (गाज़ियाबाद)
- ◆ गन्ना शोध परिषद- शाहजहाँपुर
- ◆ गन्ना शोध केंद्र- मुज़फ्फरनगर, गोरखपुर व गोला (खीरी)
- ◆ गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र- सेवरही (कुशीनगर)
- ◆ चौ. चरणसिंह बाढ़ शोध केंद्र- मेरठ (निर्माणाधीन)
- ◆ राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान- हरदोई
- ◆ मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स- सैफई (इटावा)
- ◆ वीर बहादुर सिंह (पु.व.म.) स्पोर्ट्स कॉलेज- गोरखपुर
- ◆ राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान- फैजाबाद
- ◆ नेशनल स्पोर्ट अकादमी- खेलगाँव (इलाहाबाद)
- ◆ खेल विश्वविद्यालय- अलीगढ़ (निर्माणाधीन)
- ◆ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग जोन- झाँसी व औरैया (प्रस्तावित)
- ◆ एग्रो पार्क (निर्माणाधीन)- बाराबंकी व शाहजहाँपुर
- ◆ रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिस्टिक पार्क- हापुड़ (प्रस्तावित)
- ◆ साइंस पार्क- संडीला (हरदोई)
- ◆ लेदर निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क- आगरा
- ◆ केंद्र के सहयोग से प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क- आगरा व वाराणसी
- ◆ राज्य का प्रथम सेटेलाइट टाउन- पिलखुवा (हापुड़)
- ◆ केंद्र द्वारा सोलर ऊर्जा सिटी के रूप में विकासाधीन- आगरा, मुरादाबाद व इलाहाबाद
- ◆ लायन सफारी पार्क- इटावा (निर्माणाधीन)
- ◆ थीम पार्क (पर्यटन संबंधी)- आगरा
- ◆ ताज शिल्पग्राम- आगरा
- ◆ बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक- नोएडा
- ◆ नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन- नोएडा
- ◆ वीवी गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट- नोएडा
- ◆ सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल व चिकित्सा विश्वविद्यालय (2014)- ग्रेटर नोएडा
- ◆ बच्चों का सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान- नोएडा
- ◆ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय- नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)
- ◆ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम सहित स्पोर्ट्स सिटी- नोएडा (निर्माणाधीन)
- ◆ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (फॉर्मूला-1 रेस स्थल)- ग्रेटर नोएडा
- ◆ अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स- नोएडा
- ◆ डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम- फैजाबाद
- ◆ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल- नोएडा
- ◆ एग्रो प्रोसेसिंग जोन (कृषि पार्क)- लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर
- ◆ इलेक्ट्रॉनिक सिटी- नोएडा व आगरा
- ◆ टॉय सिटी- ग्रेटर नोएडा
- ◆ वेबसिटी- ग्रेटर नोएडा
- ◆ निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क- ग्रेटर नोएडा
- ◆ राज्य का पहला व देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क- नोएडा- ग्रेटर नोएडा
- ◆ भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क (रात्रि वन्य जीव पार्क)- ग्रेटर नोएडा
- ◆ राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर- फिल्म सिटी, नोएडा

उत्तर प्रदेश: एक झलक

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

(1947 से 1950)

1. सरोजनी नायडू
2. बी.बी. मलिक
3. हारमशजी मोदी

(1950 के बाद)

1. हारमशजी मोदी
2. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
3. वराहगिरी वेंकट गिरी
4. बुर्गुला रामकृष्ण राव
5. विश्वनाथ दास
6. बेजवाड गोपाल रेड्डी
7. शशिकांत वर्मा (कार्यवाहक)
8. अकबर अली खान
9. मरीं चेन्ना रेड्डी
10. गणपतराव देवजी तपासे
11. चंदेश्वर नारायण प्रसाद सिंह
12. मोहम्मद उस्मान आरिफ
13. बी. सत्य नारायण रेड्डी
14. मोतीलाल बोरा
15. मुहम्मद शफी कुरैशी
16. रोमेश भण्डारी
17. मुहम्मद शफी कुरैशी
18. सूरज भान
19. विष्णुकांत शास्त्री
20. सुदर्शन अग्रवाल (कार्यवाहक)
21. टी.वी. राजेश्वर
22. बनवारी लाल जोशी
23. अजीज कुरैशी (कार्यवाहक)
24. राम नाईक

6.	चरण सिंह	328 दिन	भारतीय क्रांति दल
7.	चन्द्रभानु गुप्ता	356 दिन	कॉन्ग्रेस
8.	चरण सिंह	225 दिन	भारतीय क्रांति दल
9.	त्रिभुवन नारायण सिंह	167 दिन	कॉन्ग्रेस
10.	कमलापति त्रिपाठी	2 वर्ष 69 दिन	कॉन्ग्रेस
11.	हेमवती नंदन बहुगुणा	2 वर्ष 21 दिन	कॉन्ग्रेस
12.	नारायण दत्त तिवारी	1 वर्ष 99 दिन	कॉन्ग्रेस
13.	रामनरेश यादव	1 वर्ष 249 दिन	जनता पार्टी
14.	बनारसी दास	354 दिन	जनता पार्टी
15.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	2 वर्ष 39 दिन	कॉन्ग्रेस
16.	श्रीपति मिश्र	2 वर्ष 14 दिन	कॉन्ग्रेस
17.	नारायण दत्त तिवारी	1 वर्ष 52 दिन	कॉन्ग्रेस
18.	वीर बहादुर सिंह	2 वर्ष 274 दिन	कॉन्ग्रेस
19.	नारायण दत्त तिवारी	1 वर्ष 163 दिन	कॉन्ग्रेस
20.	मुलायम सिंह यादव	1 वर्ष 201 दिन	जनता दल
21.	कल्याण सिंह	1 वर्ष 165 दिन	बी.जे.पी.
22.	मुलायम सिंह यादव	1 वर्ष 181 दिन	समाजवादी पार्टी
23.	मायावती	137 दिन	बी.एस.पी.
24.	मायावती	184 दिन	बी.एस.पी.
25.	कल्याण सिंह	2 वर्ष 52 दिन	बी.जे.पी.
26.	रामप्रकाश गुप्त	351 दिन	बी.जे.पी.

27.	राजनाथ सिंह	1 वर्ष 131 दिन	बी.जे.पी.
28.	मायावती	1 वर्ष 118 दिन	बी.एस.पी.
29.	मुलायम सिंह यादव	3 वर्ष 257 दिन	समाजवादी पार्टी
30.	मायावती	4 वर्ष 307 दिन	बी.एस.पी.
31.	अखिलेश यादव	5 वर्ष 4 दिन	समाजवादी पार्टी
32.	योगी आदित्यनाथ	पदस्थ	भाजपा

उत्तर प्रदेश का बजट 2017-18

भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार 11 जुलाई, 2017 को अपना पहला बजट पेश किया था। देश में (GST) लागू होने (1 जुलाई, 2017) के बाद पहली बार किसी राज्य में बजट पेश किया गया है। सरकार ने ₹ 3,84,659.71 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ अपने संकल्प -पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

◆ किसानों की कर्ज माफी और नई योजनाओं के लिये बड़ी रकम की व्यवस्था की गई है। बजट 19 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बजट में गाँव, गरीब और किसान को राहत देने का वादा किया गया है और साथ ही सड़क, पुल व सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ाने का वादा किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के कल्याण पर भी खास जोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.स.	नाम	कार्यकाल	दल
1.	गोविन्द वल्लभ पंत	4 वर्ष 335 दिन	कॉन्ग्रेस
2.	सम्पूर्णानंद	5 वर्ष 344 दिन	कॉन्ग्रेस
3.	चन्द्रभानु गुप्ता	2 वर्ष 298 दिन	कॉन्ग्रेस
4.	सुचेता कृपलानी	3 वर्ष 162 दिन	कॉन्ग्रेस
5.	चन्द्रभानु गुप्ता	19 दिन	कॉन्ग्रेस

बेटियों की स्नातक तक की पढ़ाई निःशुल्क

सरकार ने लड़कियों की स्नातक तक की पढ़ाई निःशुल्क करने के लिये अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना की घोषणा की है। इसके लिये 21 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अभी तक इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई निःशुल्क होती थी।

- ◆ उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेश सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में किसान, रोजगार, निवेश और पर्यटन पर विशेष फोकस रहा।

दीन दयाल योजना से दीन-हीन की चिंता

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से गरीबों के लिये योजना की घोषणा कर योगी सरकार ने सियासी एजेंडे को धार देने की कोशिश की है। उनके नाम पर ₹ 300 करोड़ की नगर विकास योजना की घोषणा की गई है, वहीं 166 मॉडल इंटर कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके लिये ₹ 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- ◆ 2017-18 का बजट पिछले बजट के सापेक्ष 10.9 प्रतिशत अधिक है।
- ◆ वर्ष 2017-18 में 3 लाख 77 हजार 190 करोड़ 88 लाख रुपए की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।
- ◆ कुल व्यय 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित है।
- ◆ वित्तीय वर्ष 2017-18 में 42 हजार 967 करोड़ 86 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- ◆ राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत अनुमानित है।
- ◆ बजट में 55 हजार 781 करोड़ रुपए की नई योजनाएँ शामिल की गई हैं।

- ◆ मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और रोजगार सृजन पर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान है।
- ◆ पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिये 10 करोड़ रुपए का बजट।
- ◆ वर्मा कंपोस्ट खाद के लिये 19.56 करोड़ का बजट।
- ◆ किसानों की कर्ज माफी के लिये 36 हजार करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था।
- ◆ संपर्क मार्ग के निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट।
- ◆ सोलर पंप योजना के लिये 125 करोड़ रुपए का बजट।
- ◆ गन्ना किसानों की उपज बाजार तक पहुँचाएगी योगी सरकार।
- ◆ राज्य के प्रमुख तीर्थ शहरों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने की व्यापक कार्य-योजना।
- ◆ प्रदेश में वायु सेवा को बढ़ाने के लिये नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- ◆ आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर के लिये सस्ती विमान सेवा शुरू की जाएगी।
- ◆ व्यापक जनहित में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
- ◆ 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया।
- ◆ आगरा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा ताकि आगरा में पर्यटन की सम्भावना और बढ़े।
- ◆ अयोध्या में सरयू नदी के घाटों का विकास किया जाएगा तथा अयोध्या के परिक्रमा स्थल का निर्माण किया जाएगा एवं भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा।
- ◆ किसान बीमा योजना के लिये 692 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- ◆ अगले 5 साल में 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का एलान।

- ◆ 2017 को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये ₹ 3 हजार करोड़ दिये जाएंगे।
- ◆ मुडेरवा चीनी मिल के स्थान पर नई चीनी मिल की स्थापना।
- ◆ विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में फ्री वाई-फाई की सुविधा।
- ◆ 30,000 सिपाही और 3,200 दरोगाओं की भर्ती होगी।
- ◆ सड़क चौड़ीकरण के लिये ₹ 598.65 करोड़ रुपए का एलान।
- ◆ बुंदेलखण्ड-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा।
- ◆ औद्योगिक प्रोत्साहन के लिये ₹ 20 करोड़ का बजट।
- ◆ यूपी. सरकार सड़क विकास निगम के लिये ₹ 50 करोड़ का बजट।
- ◆ नोएडा मेट्रो रेल का होगा विस्तार, कालिंदी कुंज से बॉटनिकल गार्डन तक जाएगी मेट्रो।
- ◆ प्रदेश में लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो का परिचालन।
- ◆ प्रदेश में मेक इन यूपी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ◆ प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया जाएगा।
- ◆ 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा।
- ◆ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी।
- ◆ बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल और मध्यांचल में निजी क्षेत्र द्वारा 100-150 एकड़ में पार्क बनाया जाएगा।
- ◆ उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।
- ◆ शहरों में मलिन बस्ती के विकास के लिये 385 करोड़ रुपए का बजट।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिये 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान।
 - ◆ प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस और 15 तारीख को लाडली दिवस मनाया जाएगा तथा 25 तारीख को ममता दिवस मनाया जाएगा।
 - ◆ आम आदमी बीमा योजना के लिये 85 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है।
 - ◆ अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा।
 - ◆ दुर्बल तबके के सामान्य वर्ग, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के अभिभावकों की बेटियों के सामूहिक विवाह के लिये 250 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ नई फेरी नीति बनेगी जिसमें ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी।
 - ◆ गोरखपुर में लोक मल्हार और अयोध्या में सावन झूला का विशेष आयोजन किया जाएगा।
 - ◆ मथुरा में गीता शोध-संस्थान और कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
 - ◆ स्वदेश दर्शन योजना चलाई जाएगी। इसके तहत अयोध्या, वाराणसी व मथुरा में क्रमशः रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट और कृष्ण सर्किट योजना के लिये 1,240 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है।
 - ◆ प्रसाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में व्यवस्था विकास के लिये 800 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ वाराणसी से सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ चित्रकूट में परिक्रमा पथ का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।
 - ◆ 100 बेड के अस्पताल के लिये 85 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट।
 - ◆ राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कैंशलेस इलाज के लिये 150 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ सर्व शिक्षा अभियान के लिये 19 हजार 444 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये 112 करोड़ रुपए का बजट।
- ### सरकार का लक्ष्य
- ◆ सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 10 फीसदी विकास दर को प्राप्त करे।
 - ◆ प्रदेश में जीएसटी कार्यशाला चलाई जाएगी।
 - ◆ किसानों से सीधे गेहूँ और आलू खरीदा जाएगा।
 - ◆ प्रदेश से गरीबी हटाने का लक्ष्य।
 - ◆ प्रदेश में निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
 - ◆ सरकार सर्वांगीण विकास और भयरहित विकास को समर्पित।
 - ◆ बजट में किसानों की आय में वृद्धि, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर।
 - ◆ प्रदेश के सभी लघु और सीमांत किसानों की 1 लाख रुपए तक की ऋण माफी का प्रावधान किया गया है।
 - ◆ ऋण माफी को लेकर सभी तरह की तैयारियाँ पूरी।
 - ◆ बैंकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी किसान को नोटिस देकर परेशान न किया जाए।
 - ◆ गरीबी समाप्त करना सरकार का लक्ष्य।
 - ◆ हमारा बजट ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित: वित्तमंत्री, राजेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश)।

अर्द्धकुंभ के लिये 500, नमामि गंगे के लिये 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इलाहाबाद में वर्ष 2019 में लगने वाले अर्द्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं नमामि गंगे के तहत गंगा की सफाई के लिये 240 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

समाजवादी योजनाओं की विदाई

- ◆ बजट में अखिलेश सरकार की ओर से शुरू की गई समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन योजना, लोहिया आवास योजना जैसी कई योजनाएँ बन्द कर दी गई हैं। वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके नाम से विभिन्न सेक्टरों में नई योजनाओं का एलान हुआ है।

महिलाओं के लिये

- ◆ गर्भवती महिलाओं और पाँच वर्ष की उम्र तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिये नई स्कीम के रूप में घोषित शबरी संकल्प योजना के लिये 262 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला विकास एवं मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित हैं।

प्रमुख नई योजनाएँ

कृषि

- ◆ दीन दयाल किसान समृद्धि योजना - 10 करोड़
- ◆ गौ सेवा आयोग को अनुदान - 15 करोड़ 16 लाख

ग्राम्य विकास

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन - 213 करोड़
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना - 15 करोड़

समसामयिक विषय

उद्योग

- ◆ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना- 10 करोड़
- ◆ दीन दयाल ग्रामोद्योग योजना- 9 करोड़ 99 लाख
- ◆ सिंगल विंडो क्लीयरेंस सेल- 10 करोड़
- ◆ 'विशेष निवेश बोर्ड' की स्थापना को 5 करोड़ रुपए।

आवास एवं नगर विकास

- ◆ 'आगरा पेय जलापूर्ति परियोजना' को 200 करोड़।

खेल

- ◆ पं. दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।

नगर विकास

- ◆ कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय- 40 करोड़
- ◆ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना हेतु एक हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- ◆ दीन दयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)- 218 करोड़ 75 लाख रुपए।

न्याय

- ◆ जनपद, न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर के निर्माण के लिये- 250 करोड़।

पर्यटन

- ◆ रामायण कॉन्क्लेव- 3 करोड़
- ◆ विंध्याचल का पर्यटन विकास- 10 करोड़
- ◆ वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र के लिये- 200 करोड़
- ◆ गाज़ियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।

महिला एवं बाल कल्याण

- ◆ शबरी संकल्प अभियान- 262 करोड़
- ◆ सहायता हेतु '181' महिला हेल्पलाइन का विस्तार।

लोक निर्माण विभाग

- ◆ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना के लिये- 50 करोड़
- ◆ 'स्मार्ट सिटी मिशन' हेतु एक हजार 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें प्रदेश के 13 नगरों में बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- ◆ पं. दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना- 30 करोड़।

शिक्षा

- ◆ बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन हेतु- 100 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ कक्षा एक से लेकर आठ तक के छात्र-छात्राओं को जूता-मोज़ा और स्वेटर के लिये- 300 करोड़
- ◆ यूनीफॉर्म एवं किताबें उपलब्ध कराने को 123 करोड़
- ◆ पं. दीन दयाल राजकीय मॉडल कॉलेज को 25 करोड़
- ◆ विश्वविद्यालयों में दीनदयाल शोध-पीठ को 9 करोड़
- ◆ अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा को 21 करोड़ 12 लाख रुपए
- ◆ विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में वाईफाई- 50 करोड़।

समाज कल्याण

- ◆ मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के लिये 385 करोड़ रुपए।

- ◆ 20 जुलाई, 2017 को देश के 14वें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात के गाँव परौख में हुआ था।

- ◆ 18 जुलाई, 2017 से 'आओ अंग्रेजी सीखे' कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में प्रसारण आरंभ किया गया। इसके तहत छात्रों को रेडियो के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का मौका मिलेगा।

- ◆ वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी।

- ◆ 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पी.ई.टी.एन. नामक विस्फोटक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी जाँच कर रही है।

- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ से गाज़ीपुर के मध्य 353 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा की। यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।

- ◆ केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- ◆ 06 जून, 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश में कहा कि 2018-19 के सत्र से प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबों के स्थान पर एनसीईआरटी (NCERT) की पुस्तकों से पढ़ाई की जाएगी।

- ◆ उत्तर प्रदेश विधान सभा में 16 मई, 2017 को उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (GST Bill), 2017 पारित हुआ।

- ◆ विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपने पहले वेतन (72 हजार रुपए) का चेक मुख्यमंत्री के पीड़ित राहत कोष में

उत्तर प्रदेश: एक झलक

(यूपीपीसीएस: राज्य विशेष सामग्री)

- सहयोग हेतु मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को सौंपा।
- ◆ मई 2017 को मंत्रिमंडल द्वारा दो नए नगर निगमों के गठन का फैसला लिया गया।
 - (i) नगरपालिका परिषद मथुरा और नगरपालिका परिषद वृंदावन को मिलाकर **नगर निगम मथुरा - वृंदावन बनेगा।**
 - (ii) नगरपालिका परिषद अयोध्या एवं नगरपालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर **नगर निगम अयोध्या बनेगा।**
 - ◆ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने **25 मई, 2017** को कुशीनगर में **इंसेप्लाइटिस (दिमागी बुखार)** से निपटने के लिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के 38 जिलों में यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।
 - ◆ अप्रैल 2017 में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने अपनी **150वीं वर्षगांठ** मनाई।
 - ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग जन विकास विभाग का नाम बदलकर **'दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग'** कर दिया है।
 - ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महापुरुषों के नाम पर **15 छुट्टियों** को सार्वजनिक अवकाश से हटाकर निर्बंधित अवकाश की सूची में डाल दिया है।
 - ◆ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 6 मई, 2017 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत **लखनऊ के बालू अड्डा** में स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की।
 - ◆ 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में **सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य** का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला।
 - ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निकायों को **2 अक्टूबर, 2018** तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
 - ◆ मंत्रिमंडल की बैठक में **24 जनवरी** को **उत्तर प्रदेश दिवस** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
 - ◆ मंत्रिमंडल की बैठक में फिल्म **'एक थी रानी ऐसी भी'** को प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का निर्णय हुआ।
 - ◆ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने झाँसी भ्रमण के दौरान **बुंदेलखंड-दिल्ली एक्सप्रेस-वे (6 लेन)** के निर्माण की घोषणा की।
 - ◆ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विवाह अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है।
 - ◆ प्रदेश में 24 घंटे बिजली हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य **पावर फॉर ऑल** सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये गए।
 - ◆ हाल ही में **इस्राइल** के राजदूत डेनियल कार्मन और **जापान** के राजदूत केन्सी हिरामत्सू की प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात हुई।
 - ◆ 24 अप्रैल, 2017 को पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया।
 - ◆ **अजराड़ा घराने** (उत्तर प्रदेश) के प्रसिद्ध **तबला वादक उस्ताद हशमत अली खान** का 22 अप्रैल, 2017 को निधन हो गया।
 - ◆ 14 अप्रैल, 2017 को **100वें डिजिधन मेला** का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में किया गया।
 - ◆ **राघवेंद्र सिंह** को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।
 - ◆ गोरखपुर के कैम्पियरगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक **फतेह बहादुर सिंह** 17वीं विधानसभा के लिये प्रोटेम स्पीकर (कार्यवाहक अध्यक्ष) नियुक्त किये गए।
 - ◆ 29 मार्च, 2017 को उत्तर प्रदेश योग महोत्सव, 2017 का आयोजन लखनऊ में किया गया।
 - ◆ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने **कौशल मानसरोवर यात्रा** पर जाने वाले राज्य के मूल निवासी श्रद्धालुओं के आर्थिक अनुदान की राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करने की घोषणा की।
 - ◆ 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत **कानपुर आईआईटी** ने 5 गाँवों को गोद लिया है।
 - ◆ 4-6 जनवरी, 2017 के मध्य द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का आयोजन **लखनऊ** में हुआ।
 - ◆ 20 दिसम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्थापित मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया।
 - ◆ 20 दिसंबर, 2016 को अमूल द्वारा जनपद कानपुर एवं लखनऊ में स्थापित 3 दुग्ध प्लांटों का तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया।
 - ◆ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर, 2016 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में देश के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी।
 - ◆ 18 दिसम्बर, 2016 को सहारा न्यूज नेटवर्क ने लखनऊ में 'थिंक विद मी समिट-2016' का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में किया। इसके समापन समारोह का आयोजन गाँव कनेक्शन फाउंडेशन द्वारा किया गया।
 - ◆ 1 दिसंबर, 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया।
 - ◆ जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन दिसंबर, 2016 के मध्य लखनऊ में किया गया।
 - ◆ 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ आगरा से किया।

- ◆ 17 नवंबर, 2016 को आगरा से इटावा लायन सफारी तक 207 किलोमीटर लंबे देश एवं एशिया के प्रथम साइकिल हाइवे का उद्घाटन किया गया।
- ◆ गुरु-शिष्य परंपरा परियोजना का शुभारंभ 16 अक्टूबर, 2016 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया गया।
- ◆ राज्य सरकार का उद्देश्य अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे विद्युत की आपूर्ति करना है।
- ◆ रबी विपणन वर्ष 2017-18 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है।
- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से आलू खरीद मूल्य 487 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है।
- ◆ इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'ग्रामोदय संकल्प' का विमोचन तथा मोबाइल एप ग्रामोदय संकल्प का शुभारंभ किया गया।
- ◆ कस्तूरबा पक्षी विहार (झील) का उद्घाटन रामपुर में किया गया।
- ◆ 1 अगस्त, 2016 को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं संगीतकार विशाल भारद्वाज को 'यश भारतीय सम्मान' से सम्मानित किया गया।
- ◆ 22 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में नए 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (AIIMS) की आधारशिला रखी।
- ◆ 20 जुलाई, 2016 को 'घाटमपुर ताप बिजली परियोजना' को मंजूरी प्रदान की गई।
- ◆ प्रधानमंत्री उज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई, 2016 को बलिया (उत्तर प्रदेश) से किया गया।
- ◆ 29 मई, 2016 को टेलगो ट्रेन (स्पेन) का परीक्षण भारतीय रेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली एवं मुरादाबाद के मध्य किया गया।
- ◆ 13 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना की 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) अनुमोदित की गई। यह DPR **राइट्स (RITES) लि.** द्वारा तैयार की गई है।
- ◆ स्टैंड-अप इंडिया का प्रारंभ 5 अप्रैल, 2016 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) से किया गया।
- ◆ उत्तर प्रदेश के दूसरे ट्रेवल मार्ट, 2016 का आयोजन 21-23 फरवरी, 2016 के मध्य आगरा में हुआ।
- ◆ बेनेट विश्वविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया।
- ◆ हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (HBTI) कानपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ व गोरखपुर के बाद यह तीसरा प्राविधिक विश्वविद्यालय बन गया है।
- ◆ वरिष्ठ सदस्य श्री रमेश यादव को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का 12वाँ सभापति चुना गया है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के दादूपुर (इलाहाबाद) को 'एल.ई.डी. गाँव' और खुले में शौच से मुक्त (O.D.F.) गाँव घोषित किया गया है।
- ◆ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नागेपुर गाँव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण के तहत गोद लिया।
- ◆ इस परियोजना का लक्ष्य हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित करना है।
- ◆ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी, 2015 को प्रारंभ की गई हृदय योजना में उत्तर प्रदेश के मथुरा और वाराणसी को चयनित किया गया है।
- ◆ 25 जून, 2015 को प्रारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर (13) उत्तर प्रदेश के हैं।
- ◆ भारत के योजनाबद्ध नगरों में उत्तर प्रदेश के तीन नगर शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी (निर्माणाधीन, उत्तर प्रदेश)
- ◆ जनगणना-2011 के अंतरिम आँकड़ों के आधार पर, देश में वर्ग-I के 468 नगरीय संकुलों/नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलों/नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। यह संख्या 64 है।
- ◆ वर्ष 2011-12 के आँकड़ों के आधार पर सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर 29.43% है।
- ◆ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गरीबी 30.40% और शहरी गरीबी 26.1% है।
- ◆ प्रसाद योजना के अंतर्गत भारत में धार्मिक महत्त्व के 25 स्थलों की पहचान की गई है। इन स्थलों में उत्तर प्रदेश के तीन स्थल निम्नलिखित हैं- अयोध्या, मथुरा और वाराणसी।
- ◆ इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराया जाएगा।
- ◆ मेसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े-कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिये संयंत्र लगाया जा रहा है।
- ◆ कॉन्ग्रेस की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने राज्य विधानसभा चुनाव के समय, **उज्वला योजना** के प्रचार हेतु कंपनियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंगों को हटाने का आदेश दिया।
- ◆ राज्य के किसान **मनवीर गुर्जर** बिग बॉस सीज़न 10 के विजेता बने हैं।
- ◆ उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार दो उपमुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा) बने हैं।

एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा

- इन एंबुलेंसों में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर, डिफिब्रि लेंटर फीटल डॉलर जैसे विशिष्ट उपकरण लगे हैं।
- एंबुलेंस को जीपीएस सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा।
- इस सेवा का फोन नंबर 108 है और इसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर लखनऊ में है।
- इस सेवा की सभी एंबुलेंस, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई हैं।

उत्तर प्रदेश: एक झलक

- ◆ 1 लाख से अधिक आबादी वाले 61 शहरों और नगरों में बुनियादी शहरी संरचना में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अमृत कार्य-योजना की स्वीकृति प्रदान की है।
- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो दल का नाम बदलकर 'नारी सुरक्षा बल' कर दिया है।
- ◆ भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी को 50 हजार रुपए का बॉण्ड (सावधि भुगतान का आदेश) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत माँ को भी 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को 'नो बैग डे' घोषित किया है।

स्वच्छ शहरों की रैंकिंग

15 फरवरी, 2016 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 में 73 शहरों में से मैसूर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नोएडा और कोलकाता ने इस सर्वे में अगले वर्ष शामिल होने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ने 22वीं, लखनऊ ने 28वीं, कानपुर ने 45वीं, आगरा ने 47वीं, वाराणसी ने 65वीं, गाज़ियाबाद ने 67वीं और मेरठ ने 69वीं रैंक प्राप्त की है।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2017 की रिपोर्ट में इंदौर देश का सबसे स्वच्छ व उत्तर प्रदेश का गोंडा (434वीं रैंक) सबसे गंदा शहर है।

- ◆ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तीन और शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल कर लिया है। ये शहर झाँसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद हैं।
- ◆ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सात शहर (लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झाँसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद) स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हैं।
- ◆ हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हड़प्पाकालीन पुरावशेष मिले हैं।
- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में

पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

- ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है। इस योजना-
 - की शुरुआत शिक्षा सत्र 2017-18 से मानी जाएगी।
 - के तहत कक्षा 1 में ₹100 मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक ₹5000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है।

इसके द्वारा भू-माफियाओं द्वारा कब्जा की गई सरकारी ज़मीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिये एक वेब पोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा। अवैध कब्जे के वाद निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालय में प्रभावी पैरवी राज्य सरकार करेगी।

विलंबित भुगतान अधिकार एमनेस्टी योजना

इस योजना का उद्देश्य बिजली बकाएदारों पर लगाए गए सरचार्ज को माफ करना है। योजना द्वारा 31 मार्च, 2017 तक की बकाया राशि पर सरचार्ज माफ होगा। योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थानों तथा लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को मिलेगा। ग्रामीण निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट के साथ बकाया राशि किरतों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। लघु उद्योग इकाइयों को एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 50% छूट मिलेगी।

सर्वदा योजना

सर्वदा (स्पेशल एमनेस्टी फॉर रिस्पॉन्सिबल वालंटरी डिक्लेरेशन) योजना के तहत प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को 2 माह के भीतर वैध कनेक्शन लेने की सुविधा प्रदान की है। बिजली चोरी या अवैध कनेक्शन के तहत कटिया से बिजली लेना, घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल उपभोग, चोरी से अधिक बिजली उपभोग को सम्मिलित किया गया है।

योजना का लाभ लेने वाले को जुर्माने और कार्यवाही से राहत मिलेगी। इस प्रकार के उपभोक्ताओं को नियमानुसार बकाया राशि ही चुकानी होगी।

- ◆ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ग्राम जमालपुर निवासी वरुण सिंह भाटी ने रियो पैरालंपिक, 2016 में कांस्य पदक जीता है। वरुण सिंह भाटी को 2016-17 के यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है।
- ◆ आगरा के सिकंदरा की रहने वाली और आगरा एनफील्डर्स क्लब की सदस्य पल्लवी फौज़दार विश्व

के सबसे ऊँचे **मोटरेबल माणा पास (18,700 फीट)** पर पहुँचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं।

- ◆ प्रदेश के कौशांबी जिले में गढ़वाकोस्म इना गाँव के पास यमुना नदी से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति (शेषनाग के फनों द्वारा सेवित) मिली है।

प्राची शर्मा और प्रतिमा शर्मा
ये दोनों इलाहाबाद की निवासी हैं।
1 दिसम्बर, 2016 को लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन के शुभारम्भ के दौरान लखनऊ मेट्रो को दो महिलाओं प्राची शर्मा और प्रतिमा शर्मा ने चलाया।
तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन दोनों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया।

- ◆ उत्तर प्रदेश की **दीप्ति शर्मा** को जगमोहन डालमिया अवॉर्ड (2015-16) सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (जूनियर) का पुरस्कार मिला है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर फर्टीलाइज़र प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है।
- ◆ हिंदी अकादमी सम्मान (2016-17) का **श्लाका सम्मान** उत्तर प्रदेश के डॉ. मैनेजर पाण्डेय को मिला है।
- ◆ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए तक

का सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

- ◆ उत्तर प्रदेश में 9 तहसीलों का हाल ही में निर्माण किया गया है। इनका ज़िलावार विवरण निम्न है-

ज़िला	नवनिर्मित तहसील
चंदौली	नौगढ़
पीलीभीत	कलीनगर व अमरिया
कन्नौज	हसेरन
शाहजहाँपुर	कलान
मैनपुरी	कुरावली
बहराइच	मिहिरपुरवा (मोतीपुर)
अमरोहा	नौगवाँ सादात
सुल्तानपुर	बल्दीराय

- ◆ 21 अक्टूबर, 2014 को मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति' को स्वीकृति प्रदान की। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोज़गार वस्त्र उद्योग में है।
- ◆ उत्तर प्रदेश के आई.टी.सिटी को भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का दर्जा दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- ◆ 18 अप्रैल, 2017 को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय किया गया। इस बीमा के अंतर्गत रबी फसल पर 1.5%, खरीफ के लिये 2% तथा नकदी फसल के लिये

5% बीमा राशि का निर्धारण किया गया है।

- ◆ योजनांतर्गत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने, असफल बुआई की स्थिति, फसल बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति तथा फसल कटाई के बाद आगामी 4 दिनों में खेत में कटी हुई फसल की क्षति की भी कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- ◆ यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की जाएगी।
- ◆ बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना

- ◆ 12 अप्रैल, 2017 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने का फैसला किया गया। इस योजना के तहत कक्षा 1 में ₹100 मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक ₹5000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

■■■